



आपकी बात, निर्भीकता के साथ

प्रातःनागपुरी

आरएनआई पंजीयन सं. JHABIL/2023/86791

वर्ष : 02, अंक : 86

रांची, शुक्रवार, 07 मार्च 2025 (फाल्गुन शुक्ल 08, संवत् 2081), पृष्ठ : 12, मूल्य : 3 रुपये

email: jharkhandwanitadyog@gmail.com

झारखंड विधानसभा से कृषि विभाग के 24.21 अरब का बजट पारित

पात: नागपुरी संवाददाता

रांची। बजट सत्र के दौरान गुरुवार को भोजनवकाश के बाद कृषि और पशुपालन विभाग का 24 अरब 21 करोड़ आठ लाख और 16 हजार रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष अनुपस्थित रहा। विपक्ष पहली पाली में सदन में वॉक आउट किया था। वहीं कृषि विभाग के बजट पर हुए वाद-विवाद पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिल्पी ने कहा कि यह चिंता का विषय है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है। इस विपक्ष अपनी अंतर्कलह के कारण सदन में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना सुनना चाहती है। मंत्री ने कहा कि



सरकार ने हाल के दिनों में कृषि के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी लक्ष्य काफी दूर है। उन्होंने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति के चलते यहां के किसान विपरीत परिस्थितियों में भी जोड़ीपी में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में 5000 एमटी क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर रही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि किसानों

रसोइयों के मानदेय में 50 फीसदी की वृद्धि, अब प्रतिमाह मिलेंगे 3000 रुपये

रांची। झारखंड सरकार ने रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सवाल उठाया कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंडीयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये मिल रहे हैं। जबकि दिव्यांग, रसोइया और सहाय्यिकाओं को केवल 2000 रुपये दिये जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री सुदिप कुमार सोनू ने बताया कि अब राज्य में कार्यरत रसोइयों को प्रतिमाह 3000 रुपये का मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी, यह राशि रसोइयों को होली से पहले मिले। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2000 को बढ़ाकर 3000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तृतीय अनुसूचक बजट में स्वीकृति मिल गयी है। इसके तहत रसोइयों के मानदेय को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का फैसला लिया गया है।

कल्पना सोरेन ने अंतरराज्यीय बॉर्डर पर चेक पोस्ट का मामला उठाया

रांची। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को अंतरराज्यीय बॉर्डर में कॉमिशियल वाहनों के लिए चेक पोस्ट का मामला उठा। गांडीय की विधायक कल्पना सोरेन ने ध्यानकर्षण के माध्यम से इनसे सदन में उठाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले 7-8 सालों से यह बंद है, जिससे राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मंत्री दीपक बिरुआ ने तीन माह में शुरू करने का दिया आश्वासन : कल्पना सोरेन के ध्यानकर्षण पर जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन को बताया कि विभाग जल्द व्यवस्था फिर से शुरू करेगा। उन्होंने सदन को बताया कि वे प्रावधान 2017 से ही बंद था। आने वाले तीन माह में इसे फिर से शुरू किया जायेगा। इसी पर वित और संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि विधायक कल्पना सोरेन का ध्यानकर्षण राज्य के हित से जुड़ा हुआ है। राज्य से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे जल्द ही शुरू किया जायेगा।

भाजपा विधायकों ने दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग पर किया वॉकआउट



प्रातः नागपुरी संवाददाता मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी करने की मांग की। उनकी इस मांग का समर्थन बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी किया और नारेबाजी करते हुए वेल में जा चुसे। इसका जवाब देते हुए वित मंत्री राधा किशोर ने सीमावर्ती राज्य में मिलने वाली राशि का उदाहरण दिया। शेष पेज 08 पर

संक्षिप्त खबरें

जमशेदपुर के उद्यमी के शोरूम को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार
जमशेदपुर। बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी च शहर के प्रमुख उद्यमी दिलीप गोलयल को फोन पर शोरूम को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कोई और नहीं उनका पुत्र सुवराज राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिख ही निकला। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार राहुल पारिख जुमसलाई पुरानी बस्ती रोड पारिख भवन का रहने वाला है। वर्ष 2020 में कंपनी प्रबंधन द्वारा राहुल पारिख को नौकरी से निकाल दिया गया था। वर्तमान में दूसरी जगह काम कर रहा था। मालूम हो कि बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी व एएसएल मोर्टर्स के मालिक दिलीप गोलयल शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी हैं। बदमाश द्वारा चार फरवरी की रात 9.30 बजे उन्हें फोन कर शोरूम को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी थी।

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने बाबूलाल मरांडी

पात: नागपुरी संवाददाता

रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को धनवार विधानसभा सौर से विधायक बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में अपने विधायक दल का नेता नियुक्त किया। रांची में एक बैठक के दौरान, मरांडी, जो राज्य भाजपा अध्यक्ष भी हैं, को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं खुद को पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नन्दा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव और के. लक्ष्मण, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत तमाम शीर्ष नेताओं का आभार जताया है। चुनाव के लिए दिल्ली से पहुंचे थे दो केंद्रीय पर्यवेक्षक : इसस पहले भाजपा संसदीय बोर्ड ने बुधवार को झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के

बीजेपी ने सर्वसम्मति से चुना विधायक दल का नेता



‘पार्टी की नीति और गरीब, दलित की समस्याओं पर करुणा काय’
बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा- मैं, पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों के साथ जनता की आवाज बनकर गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए पूर्ण निष्ठा और क्षमता के साथ कार्य करूंगा।

लिफ दो केंद्रीय पर्यवेक्षकों - केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी डॉ. के. लक्ष्मण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। झारखंड विस चुनाव में भाजपा का

झारखंड में बीजेपी को लीड करेगा ओबीसी नेता? सियासी गलियारों में लॉबींग तेज

रांची। झारखंड में विधानसभा गठन के करीब दो महीने बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बाबूलाल मरांडी के रूप में नया नेता सदन मिल गया है। इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पिछली विधानसभा में भी भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को नेता सदन की जिम्मेदारी दी थी। परंतु उस समय जेपीएम के भाजपा में विलय वाले तत्कालीन मुद्दे पर तत्कालीन स्पॉन्सर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया था। शेष पेज 08 पर

भाजपा की सहयोगी दल आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक-एक सीट पर जीत मिली थी। सीएएम ने दी बधाई : नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को बधाई दी है।

रांची के चान्हे में दो लोगों की हत्या गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजा आश्रम

पात: नागपुरी संवाददाता



पुलिस ने चार आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

रांची। चान्हे थाना क्षेत्र के चामा में बुधवार की देर रात दो लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। मृतकों की पहचान राजेंद्र यादव और महेश के रूप में हुई है। दोनों चान्हे थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम में रहा करते थे। इसी दौरान अज्ञात बंदूकधारी ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। वया है पूरा मामला : दोहरे हत्याकांड को यह वारदात रांची के चान्हे थाना क्षेत्र के चौड़ा चामा स्थित आश्रम में अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र यादव और महेश दोनों ही काफी दिनों से आश्रम में ही रह रहे थे। बुधवार की रात लगभग एक बजे कुछ हथियारबंद लोग आश्रम पहुंचे और राजेंद्र यादव को निशाना बना कर फायरिंग करने लगे। इसी बीच गोलीबारी की आवाज सुन कर जब महेश राजेंद्र यादव की तरफ बढ़ा, तो अपराधियों ने उसे भी गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर गोलीबारी की आवाज सुन कर

सोनारी के छात्र की कपाली में हत्या, 2 गिरफ्तार

जमशेदपुर। जमशेदपुर के सोनारी गवाला बस्ती के रहने वाले मैट्रिक परीक्षार्थी शिवम कुमार सिंह (17) की बुधवार रात सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के कमारगोड़ा में खजूर के पेड़ के नीचे धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गयी। पुराने विवाद और प्रेम-प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के आरोप में मुख्य अभियुक्त राहुल दास और मो आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। वारदात के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुरुवार को डोबो मेन रोड को दो घंटे तक जाम कर दिया।

झामुमो का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को रांची में : विनोद पांडेय

□ 60 लाख नए सदस्य बनाने का अपना लक्ष्य पार्टी करेगी पूरा

पात: नागपुरी संवाददाता

रांची। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन रांची में 14-15 अप्रैल को आयोजित होगा। झामुमो कार्यालय में गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने महाधिवेशन की तिथि की घोषणा की और कहा कि रांची के खेलगांव स्थित इनडोर स्टेडियम में झामुमो का दो दिवसीय महाधिवेशन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल के अवसर पर शुरू होगा और समापन 15 अप्रैल को किया जाएगा। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति बनेगी।



विनोद पांडेय ने कहा कि महाधिवेशन में झारखंड के बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम और तमिलनाडु से प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इन प्रांतों में झामुमो की संघटनिक इकाइयां हैं। महाधिवेशन आरंभ होने के बाद केंद्रीय समिति भंग कर दी जाएगी। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछली बार 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य था। शेष पेज 08 पर

आईआईटी-आईएसएम धनबाद में छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के बाथरूम में मिला शव

□ मध्यप्रदेश के इंदौर का रहने वाला था तन्मय प्रजापति

पात: नागपुरी प्रतिनिधि

धनबाद। आईआईटी-आईएसएम धनबाद के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। वह मध्यप्रदेश के इंदौर का रहने वाला था। मृतक का नाम तन्मय प्रजापति है। तन्मय प्रजापति वर्ष 2022-26 बैच का थर्ड ईयर का छात्र था। मानसिक रूप से बीमार चल रहे तन्मय प्रजापति की पिछले कुछ दिनों से लगातार काउंसलिंग चल रही थी। तन्मय प्रजापति बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्प्यूटेशन डिपार्टमेंट का छात्र था। हॉस्टल एकवामरीन की 13वीं मंजिल पर एक बाथरूम में जहर



खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाथरूम के दरवाजे के सामने जमीन पर पड़ा था तन्मय : तन्मय ने जिस बाथरूम में आत्महत्या की, उसका इस्तेमाल आमतौर पर छात्र नहीं करते। सुबह 9:45 बजे के

करीब आत्महत्या की बात सामने आयी। सफाईकर्मी जब हॉस्टल के बाथरूम की सफाई करने पहुंचे, तो वह अंदर से बंद था। विलंब होने पर सफाई कर्मचारियों ने काफी आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिला, तो सफाईकर्मीयों ने हॉस्टल के सुरक्षा गार्डों को भी जानकारी : सफाई कर्मचारियों ने इसकी सूचना तत्काल हॉस्टल के सुरक्षा गार्डों को दी। गार्डों ने इसकी सूचना बड़े अधिकारियों को दी। इसके बाद बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। शेष पेज 08 पर

बैतूल की कोयला खदान में गिरा स्लैब, तीन मजदूरों की हुई मौत

□ कई फंसे, जारी है रेस्क्यू

मध्य प्रदेश। मध्यप्रदेश के बैतूल स्थित कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया। यहां वेस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदान में स्लैब गिर जाने से कई मजदूर फंस गए हैं। खबर है कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है और कई मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव में लग गई है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक खदान में फंसे तीन लोगों में से दो मजदूर को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में तीन मजदूर की मौत : न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस



अधीक्षक निश्चल झारिया ने घटना पर कहा कि कोयला खदान के ढहने के बाद मलबे से निकाले गए डब्ल्यूसीएल के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मृतकों में दो स्थानीय निवासी थे, जबकि तीसरा छत्तीसगढ़ के कवर्धा का निवासी था। अधिकारी ने बताया कि उसके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शेष पेज 08 पर

चीन हमले से वीरान हुए गांव फिर होंगे आबाद : मोदी

एडिसियां

उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा में विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने विशेष रूप से उन दो गांवों का जिक्र किया, जो 1962 में चीन के हमले के बाद खाली कराए गए थे और करीब 60-70 सालों तक वीरान पड़े रहे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अब इन गांवों को फिर से बसाने और उन्हें एक प्रमुख



पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में राज्य

में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उत्तराखंड के पर्यटन को सालभर जारी रखने के लिए बारहमासी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे हर मौसम

बारबाडोस ने पीएम को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और मूल्यवान सहारा के सम्मान में प्रतिष्ठित ऑनोरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ ब्राबडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मारगेरिटा ने बारबाडोस के डिजटाउन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह अर्वादि पुरस्कार दोनों देशों भारत और बारबाडोस के बीच स्थायी दोस्ती का प्रतीक है। पुरस्कार की घोषणा बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमेर मोटली ने 20 नवंबर, 2024 को जॉर्जटाउन, गुयाना में दूसरे भारत-कैरिबियन नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान की थी।

‘ऑन सीजन’ बन सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में पर्यटन मुख्य रूप से मार्च से जून के बीच उत्तराखंड आते हैं, लेकिन उसके बाद पर्यटकों की संख्या घट जाती है, जिससे होटलों और होमस्टे में सन्नाटा छा जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उन्होंने सर्दियों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। शेष पेज 08 पर

अब झारखंड में रेलगाड़ी से कटकर नहीं होगी गजराजों की मौत, एआई करेगा रक्षा

पात: नागपुरी संवाददाता

रांची। रेलवे ट्रेक पर हाथियों के कटने की घटनाओं को रोकने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित इंटूशन डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। रेलवे ने उन स्थानों को चिह्नित किया है, जहां अक्सर हाथियों की आवाजाही होती है। इन स्थानों पर इस प्रणाली को स्थापित किया जायेगा। रेलवे ट्रेक के किनारे इसे स्थापित किया जायेगा : यह पहल रेलवे

□ ट्रेक पर हाथियों के आने पर लोगी इटका, अलार्म से ट्रेन को मिलेगी खबर

□ रेलवे व वन विभाग का संयुक्त प्रयास, ट्रेक किनारे लगायी जायेगी मशीन



ओर वन विभाग के सहयोग से की जा रही है, ताकि हाथियों को ट्रेन की चपेट में आने से रोका जा सके। शेष पेज 08 पर

□ कोल्हान प्रमंडल में 7 साल में ट्रेन से कटकर हो चुकी है 12 हाथियों की मौत

संक्षिप्त
शिशु हृदय रोग जांच शिविर 8 मार्च को
सोनाहाट/राहे। प्रखंड के सीएचसी सोनाहाट, पीएचसी राहे पर पीएचसी पंडाडीह में 8 मार्च को शिशु हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया है।

देश का पहला अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एनसीडीसी अस्पताल भवन का नहीं हो सका उद्घाटन

अविनाश कुमार
इटकी। इटकी में अत्याधुनिक नव निर्मित एनसीडीसी (नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल) जांच केंद्र भवन का निर्माण कार्य पूरा हुए महीनों गुजर गये इसके बावजूद विभाग द्वारा एनसीडीसी भवन का उद्घाटन नहीं किया जा सका है।



से यथावत पड़ा है जिसके कारण यहां जांच शुरू नहीं हो सकी है। केन्द्र सरकार को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भवन निर्माण में करीब 13 करोड़ से अधिक लागत आई है। इटकी में देश का पहला अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एनसीडीसी केन्द्र है।

वर्ष 2019 में एनसीडीसी अस्पताल भवन की रखी गई थी आधारशिला

विभाग के अधिकृत अधिकारियों की एक टीम ने मोडिको सिटी के लिए अधिग्रहित भूमि पर एनसीडीसी के लिए दो एकड़ भूमि पर मार्केशन कर अलग कराया था। इसके बाद 1 मार्च 2019 को स्थल पर लेआउट कर एनसीडीसी अस्पताल भवन का आधार शिला रखा गया था।

सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग प्रारूप तैयार किया था। प्लॉट संख्या 23, 81 रकबा 8.40 एकड़ में दो एकड़ भूमि पर एनसीडीसी अस्पताल का स्थापना किया गया है।

सिल्ली कॉलेज में विशेष शिविर का शुभारंभ

सिल्ली। सिल्ली कॉलेज सिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉ अनंत कुमार महतो एवं अन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

महिलाओं ने शुरु की होली की तैयारी पलाश के फूल से तैयार हो रहा गुलाल



रामगढ़। जेएसएलपीएस (पलाश) की ओर से नन फार्म के अंतर्गत रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में प्राकृतिक गुलाल बनाने के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

हत्याकांड का खुलासा, दो गिरफ्तार

एक आल्टो कार, चार मोटरसाइकिल, एक टांगी, एक हथौड़ा और पांच मोबाइल फोन जब्त



आरोपितों के पास से पुखराज से लूटे गए 17 लाख रुपये में से नगद साढ़े आठ लाख रुपये, घटना में प्रयुक्त एक आल्टो कार, चार मोटरसाइकिल, एक टांगी, एक हथौड़ा और पांच मोबाइल फोन बरामद कर लिये हैं।

गया कि राजस्थान निवासी पुखराज कुमार अवैध अफीम और डोडा के कारोबार में जुड़ा था। वह डोडा खरीदने के लिए ही 27 फरवरी को रांची आया था।

खूंटी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को बिरसा कालेज खूंटी में एनएसएस के छात्र-छात्राओं के बीच चित्रांकन, श्लोचन और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

मृतक वृद्ध महिला के खाते से 47 हजार की अवैध निकासी

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि
राहे। राहे थाना क्षेत्र स्थित एस्बीआई बैंक शाखा से एक मृतक वृद्ध महिला के खाते से वृद्धावस्था पेंशन की राशि 47 हजार की निकासी बिचौलियों की मिलीभगत से किये जाने का मामला प्रकाश में आया है।

आती रही इतक मृतक महिला के खाते की राशि पर अस्थायी बैंककर्मियों और बिचौलियों का नजर पड़ी और दो किस्तों में 17 हजार और 30 हजार की राशि अवैध तरीके से निकाली गई।

अधिकारियों की पहल पर हुई वसूली
जानकारी दी। बीडीओ ने मामले को संज्ञा में लेकर त्वरित कार्रवाई करते जांच पड़ताल शुरू कर दी।

इस संबंध में बीडीओ अशोक कुमार ने कहा कि मामला मेरे संज्ञा में आया है। मामला सही है जांच चल रही है।

नवाडीह से बसंतपुर सड़क निर्माण कार्य बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि
सिल्ली/राहे। राहे प्रखंड के नवाडीह से बसंतपुर भाया पोगड़ा 3.1 किमी सड़क निर्माण का काम पिछले जनवरी महीने से बंद है इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है।



जायगी। एनसीडीसी अस्पताल भवन का निर्माण वर्ष 2023 में कर चारहदिवारी का भी रंग रोजन सहित अन्य कार्य पूरा किया जा चुका है।

रामगढ़ में निकलेगा विशाल मंगला जुलूस

रामगढ़। रामनवमी के त्यौहार को लेकर रामगढ़ में अभी से ही महासमिति की तैयारी शुरू हो गई है। एक अप्रैल को विशाल मंगला जुलूस निकाला जाना है।

राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची की एनएसएस इकाई के सात दिनी स्पेशल कैंप का समापन

प्रातः नागपुरी संवाददाता
रांची। बुधवार को राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची की एनएसएस इकाई एक तथा इकाई दो का सात दिवसीय स्पेशल कैंप का समापन हुआ।



कहा की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन को सफल पूर्वक जी सकता है।

एबीवीपी ने खूंटी में किया जिला स्तरीय छात्र पंचायत का शुभारंभ

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि
खूंटी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने गुरुवार को जिला स्तरीय छात्र पंचायत का शुभारंभ किया।



से जुड़े लाभुकों को केसीसी उपलब्ध कराने तथा जिले के अलग-अलग खानन प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़ी खदानों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग कोलॉपिट की पहचान कर संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

भाजपा राहे मंडल अध्यक्ष चितरंजन महतो के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़

राहे। भाजपा राहे मंडल के अध्यक्ष व समाजसेवी चितरंजन महतो का शरीर गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गया।

डीसी ने की कृषि और अन्य संबद्ध विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, कहा

पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य पालन से जुड़े लाभुकों को दें केसीसी के लाभ

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि
रामगढ़। रामगढ़ जिले के वैसे किसानों को केसीसी का लाभ मिलना चाहिए, जो पशुपालन, गव्य विकास और मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं।



डीसी चंदन कुमार ने किसानों को योजनाओं से जोड़ने और जागरूक करने के लिए परियोजना निदेशक को कृषि मेला आयोजित करने का निर्देश दिया।

योजना पर विशेष ध्यान देते हुए अभियान मोड में योग्य लाभुकों को योजना से जोड़ने को कहा।

साथ ही उपायुक्त ने पीएम किसान योजना के तहत स्वयं से पंजीकरण करने वाले लाभुकों की जांच कर स्वीकृति देने तथा उनका ईकैवाईसी का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ से आच्छादित करने को कहा।

से जुड़े लाभुकों को केसीसी उपलब्ध कराने तथा जिले के अलग-अलग खानन प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़ी खदानों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग कोलॉपिट की पहचान कर संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में 9 मार्च से शुरू होगा दीक्षांत समारोह

रामगढ़। रामगढ़ शहर के राधा गोविंद विश्वविद्यालय परिसर में नौ मार्च से प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा।



संक्षिप्त

रांची यूनिवर्सिटी का 38वां दीक्षांत समारोह आज
रांची। रांची यूनिवर्सिटी का 38वां दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन रांची यूनिवर्सिटी के मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में होगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 38 वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार होंगे। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ होंगे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और उच्च शिक्षा और तकनीक मंत्री सुदित सोनू भी शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में 63 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसमें से 15 छात्र और 48 छात्राएं शामिल हैं। वहीं दीक्षांत समारोह में एक फेब्रुवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक यूनिवर्सिटी के विभिन्न विषयों की परीक्षा में पास हुए छात्र-छात्रा शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह के लिए गुरुवार तक कुल 4410 छात्र-छात्राओं ने आवेदन दिया है।

फाल्गुन माह में श्री श्याम प्रभु की पूजा-अर्चना का विशेष महत्त्व
रांची। श्री श्याम ध्वजा पदयात्रा समिति के प्रवक्ता सह रांची जिला मारवाडी सम्मेलन के संयुक्त महामंत्री संजय सराफ ने कहा है कि फाल्गुन माह में श्री श्याम प्रभु की पूजा अर्चना का विशेष महत्त्व होता है। तथा फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र एवं मंगलमय होता है। क्योंकि यह दिन श्याम प्रभु की उपासना का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। फाल्गुन माह की शुक्ल एकादशी 10 मार्च को है इस दिन को 'श्याम एकादशी' भी कहा जाता है, और इस दिन भक्त श्री श्याम प्रभु की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। एवं भक्तों में विशेष श्रद्धा देखने को मिलती है, क्योंकि श्याम प्रभु की कृपा पाने के लिए यह एक अत्यंत उच्चतम समय होता है। जो अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई, मानसिक तनाव या आर्थिक समस्या से जूझ रहे होते हैं। श्री श्याम प्रभु की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भक्तों के जीवन में सुख-शांति का वास होता है। श्री खाटू श्याम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं।

हॉस्पिटल में निःशुल्क डॉक्टर परामर्श 08 से 12 मार्च तक
रांची। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्वा स्थित पारस हॉस्पिटल, एचडीसी में महिलाओं के लिए आठ से 12 मार्च तक निःशुल्क डॉक्टर परामर्श दिया जाएगा। यह परामर्श सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। सभी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। इस पहल के तहत, निःशुल्क डॉक्टर परामर्श लेने के बाद आपोडी की जांच पर 50% की छूट और हेल्थ पैकेज पर भी 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, विशेष जानकारी के लिए आर 7282010101 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पारस हॉस्पिटल के जोनल हेड श्रीकांत सुबुद्धि ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पारस हॉस्पिटल ने एक पहल की है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए निःशुल्क डॉक्टर परामर्श दिया जाएगा। महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना जरूरी है, खासकर हार्मोनल संतुलन, हृदय स्वास्थ्य, हड्डियों की मजबूती और मधुमेह जैसी बीमारियों की जांच के लिए।

झारखंड के तापमान में आज से फिर होगी वृद्धि
रांची। देश के उत्तरी-पश्चिमी दिशा में हुई बर्फबारी की वजह से झारखंड के विभिन्न इलाकों में तापमान में हो रही गिरावट शुक्रवार से थम जाएगी। तापमान में शुक्रवार से फिर से बढ़ोतरी होने लगेगी। यह जानकारी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि बुधवार की तुलना में गुरुवार को तापमान में एक डिग्री की ही वृद्धि होगी। झारखंड के सभी जिलों में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अभिषेक आनंद ने गुरुवार को बताया कि झारखंड में इस वर्ष भी गर्मी औसत से थोड़ी अधिक पड़ेगी।

कांग्रेस नेता ने 33 अवैध बार पर कार्रवाई करने की राज्यपाल से लगाई गुहार

प्रातः नागपुरी संवाददाता रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची जिला युवा कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव एवं रांची विधानसभा प्रभारी रोहित सिन्हा ने राज भवन में गुरुवार को भेंट की। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी शहर के 33 अवैध बार पर कार्रवाई नहीं करने के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपित किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में रूफटॉप में अवैध रूप से चल रहे 33 बार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश कई महीने पहले रांची नगर निगम एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को दिया है। हालांकि अवैध बार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय

ज्ञापन सौंपकर कहा, नगर निगम और उत्पाद विभाग नहीं ले रहे एक्शन



उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए अवैध बार के माध्यम से शराब बेचने वाले संचालकों को सहयोग किया जा रहा है, जबकि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रूफटॉप में निर्माण और व्यवसाय करना वर्जित है। इसके बावजूद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों द्वारा रांची शहर में 36 रूफटॉप में चल रहे बार को लाइसेंस दिया गया। इस मामले में रांची नगर निगम ने भी कोई आपत्ति नहीं करते हुए अवैध बार संचालकों को सहयोग किया है। श्री सिन्हा ने यह भी कहा है कि शहर में फुटपाथ पर दुकान चलाने

वाले लोगों के दुकानों को तोड़कर उनका सामान नगर निगम के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा राजधानी रांची में रूफटॉप पर चल रहे 33 बार को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा ना तो बार को सील कर सामान जब्त किया गया है और ना ही उस भवन के मालिक के ऊपर कोई केस किया गया है। इसी तरह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों द्वारा भी ना तो बार का लाइसेंस रद्द किया गया और ना ही अवैध बार संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। कुछ अवैध बार संचालकों को सहयोग

मुख्यमंत्री आवास, राजभवन सहित कई जगहों पर 02 मई तक लगी निषेधाज्ञा

प्रातः नागपुरी संवाददाता रांची। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन सहित कई जगहों पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इस दौरान कई प्रतिबंध रहेंगे। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकर हुसैन पार्क की जगह कतिपय संगठनों/दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने व लोक परिशांति भंग होने की आशंका है। इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न जगहों पर निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 2 मई, 2025 या अगले



यहां लगी निषेधाज्ञा

- मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
- झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- नये विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन की 100 मीटर की परिधि में।
- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन की 200 मीटर की परिधि में।

आदेश तक जो पूर्व लागू हो, तक रहेगा।
इसपर रहेगा प्रतिबंध
बिना सक्षम प्राधिकार के पुनर्निर्माण के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

को किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)। यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।

जेनेरिक दवा की आपूर्ति के मामले में अरुम स्थान रखता है देश : श्रीमती सहाय

प्रातः नागपुरी संवाददाता रांची। हमारा देश जेनेरिक दवा की आपूर्ति के मामले में अहम स्थान रखता है। हमने कोविड के दौरान इस दिशा में दुनिया भर में वैकसीन की सप्लाई की। हाल के वर्षों में कई सरकारी योजनाओं से भी देश में दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यह बातें 6 मार्च को स्टेट इन्स कंट्रोल डायरेक्टरेट की निदेशक श्रीमती रितु सहाय ने कहीं। वे सरला बिरला विश्वविद्यालय में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के अवसर पर मनाए गए कार्यक्रम 'फार्मा अन्वेषण 2025' के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर बोल रही थी। श्रीमती सहाय ने छात्रों से आधुनिक तकनीकों को उपयोग कर अपना हुनर बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड के एकमात्र विवि के तौर पर सरला बिरला विश्वविद्यालय के चयन और इस निमित्त मिलने

सरला बिरला विश्वविद्यालय में मना नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे



वाले अनुदान पर विवि के फार्मेसी विभाग को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उपस्थित श्रीताओं को डॉक्टर रेड्डी लैब के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. राकेश्वर बंदीछौर, पीसीआई के सेंट्रल कार्टिसिल मेंबर डॉ. आकाश वेद के अलावा बीआईटी, मेसरा के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के प्रोफेसर डॉ. वी. प्रकाश एवं सैमिरा इनोफार्म के जीएम श्री जय गणेश एएस ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में एसबीयू के महानिदेशक प्रो गोपाल पाठक ने आंत्रेनोरशिप में उपलब्ध अवसरों, फार्मेसी की भूमिका और इसके इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डाला। कुलपति

प्रो सी जगननाथन ने शिक्षा के उद्देश्यों पर बात की। उन्होंने दवाओं की आवश्यकता को शिक्षा के मूल सत्व से जोड़ते हुए छात्रों को इसकी जरूरत के विषय में बताया। कार्यक्रम में स्वागत सरला बिरला विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के इंचारज डॉ. शुभ्रजीत मंत्री और धन्यवाद श्रीमती निशा सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुबानी बाड़ा, प्रो. विजय कुमार सिंह, आशुतोष द्विवेदी, डॉ. नीलिमा पाठक, डॉ. शैलेश नारायण, डॉ. संदीप कुमार, डॉ. सविता, सुरुचि गुप्ता, पल्लवी रानी, अंजलि मिश्रा, पवन महतो, संतोष कुमार समेत विवि के अधिकारी एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति बिजय कुमार दलान एवं राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप कुमार वर्मा ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

नर्सिंग लैप लाइटिंग, कैपिंग और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन



प्रातः नागपुरी संवाददाता रांची। संतोष कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नर्सों पर ध्यान केंद्रित करते हुए (सत्र -2024) के लिए नर्सिंग लैप लाइटिंग, कैपिंग और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर नर्सिंग की छात्राओं ने प्रस्तुति दी। समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर निदेशक डॉ. रश्मि, उपनिदेशक डॉ. अदिति, डॉ. ऐश्वर्या, डॉ. राजन पांडे (मुख्य अतिथि) डॉ. मयूरी पांडे (मुख्य अध्यापिका), श्रीमती रूथ कुमकल (उप प्राचार्य) श्रीमती सुप्रिया बक्सला (नर्सिंग प्रभारी) भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री से मिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल



प्रातः नागपुरी संवाददाता रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड पुलिस एसोसिएशन, रांची, झारखंड के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं झारखंड पुलिस में एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने भी झारखंड पुलिस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने वालों में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू, वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद महताब आलम, उपाध्यक्ष रोहित कुमार रजक, महामंत्री संजीव कुमार, वरीय संयुक्त सचिव संतोष कुमार महतो एवं राकेश कुमार पांडे, संतान सचिव मंटू कुमार, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद कमाज, भागवत मुर्मू, करण कुमार और नितिन रवि, झारखंड पुलिस मेन्स एसोसिएशन के महामंत्री रमेश उरांव, उपाध्यक्ष देवचंद्र मुंडा, उपाध्यक्ष परमेश्वर महतो, कोषाध्यक्ष गुलाब महतो, सहायक महामंत्री लालेश्वर राम, सहायक महामंत्री तोषेश्वर यादव, पूर्व मेन्स अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, पूर्व वरीय उपाध्यक्ष और अखिलेश्वर पांडेय तथा झारखंड पुलिस एसोसिएशन, रांची शाखा के अध्यक्ष आनंद राज खलखो, अनीश कुजूर, देवता चरण उपध्याय एवं उपाध्यक्ष ठाकुर दयाल महतो मौजूद थे।

डीएवी सरला स्कूल तुपुदाना में मना पहला स्थापना दिवस

रांची। डीएवी सरला स्कूल ने अपनी स्थापना के सफल एक वर्ष पूरे कर लिए हैं, और यह सफर शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करने वाला रहा है। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए विद्यालय में केक कटिंग समारोह आयोजित किया गया, जहां बच्चों को टॉफियां वितरित की गईं। हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया विद्यालय प्रबंधन स्कूल के 1 वर्ष पूरे होने पर काफी उत्साहित नजर आए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एवं अभिभावक भी विद्यालय के परफॉर्मंस को लेकर प्रसन्न दिखे।

होली स्पेशल 12 और 13 मार्च, 2025 को पटना से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का पटना प्रस्थान 12:30 बजे, गया आगमन 14:20 बजे प्रस्थान 14:40 बजे, कोडरमा आगमन 15:58 बजे प्रस्थान 16:00 बजे, गोमो आगमन 18:00 बजे प्रस्थान 18:05 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 19:00 बजे प्रस्थान 19:05 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 20:10 बजे प्रस्थान 20:12 बजे, रांची आगमन 21:30 बजे प्रस्थान 21:35 बजे, हटिया आगमन 21:50 बजे प्रस्थान 21:55 बजे, राउरकेला आगमन 01:00 बजे प्रस्थान 01:08 बजे, रायपुर आगमन 10:15 बजे प्रस्थान 10:20 बजे एवं गोँदिया आगमन 14:30 बजे होगा।

रांची से होकर चलेगी गोँदिया-पटना होली स्पेशल ट्रेन

प्रातः नागपुरी संवाददाता रांची। होली पर्व के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त थोड़ है। इसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए गोँदिया-पटना-गोँदिया होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन रांची से होकर चलेगी। इन ट्रेनों में एसएलआरडी के 2 कोच, सामान्य श्रेणी के 6 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 9 कोच, वातानुकूलित 3-टियर के 2 कोच, वातानुकूलित 2-टियर का 1 कोच, वातानुकूलित 2-टियर सह वातानुकूलित 3-टियर संयुक्त कोच के 2 कोच एवं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित 2-टियर संयुक्त कोच का 1 कोच यानी 23 कोच होंगे। ट्रेन संख्या 08897 गोँदिया-पटना होली स्पेशल 11 और 12 मार्च,



2025 को गोँदिया से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का गोँदिया प्रस्थान 11:00 बजे, रायपुर आगमन 14:00 बजे प्रस्थान 14:05 बजे, राउरकेला आगमन 22:15 बजे प्रस्थान 22:23 बजे, हटिया आगमन 01:30 बजे प्रस्थान 01:35 बजे, रांची आगमन 01:50 बजे प्रस्थान 01:55 बजे, मुरी आगमन 03:00 बजे प्रस्थान 03:02 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 04:00 बजे प्रस्थान 04:05 बजे, गोमो आगमन 04:50 बजे प्रस्थान 04:55 बजे, कोडरमा आगमन 06:05 बजे प्रस्थान 06:07 बजे, गया आगमन 07:50 बजे प्रस्थान 08:20 बजे एवं पटना आगमन 11:00 बजे होगा। ट्रेन संख्या 08898 पटना-गोँदिया

संक्षिप्त

टाटा कटिहार ट्रेन से अवैध शराब जब्त

चाडिल। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की विशेष जांच टीम ने टाटा-कटिहार एक्सप्रेस (18181) के जनरल बोगी से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। आरपीएफ पोस्ट चाडिल की टीम जिसमें एसआई गुनुपुर प्रसाद, एसआई इसके महलो, जी. ओरांव और तन्मय मंडल शामिल थे चाडिल स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चला रही थी। लेटफॉर्म संख्या 2 पर जब ट्रेन पहुंची तो यात्रियों ने जनरल बोगी के दरवाजे के पास रखे तीन गिडू बैग के बारे में जानकारी दी जिनका कोई दवेदार नहीं था। जांच करने पर बैग के अंदर ऑफिसर वॉइस ब्रांड के 288 पाउच पाए गए जिनमें प्रत्येक की मात्रा 180 एमएल थी। जब शराब की कुल कीमत 37,440 रुपये आंकी गई है। आरपीएफ टीम ने बरामद शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सरायकेला-खरसावा जिला आवकारी विभाग को सौंप दिया। फिलहाल इस तस्करी से जुड़े लोगों की पहचान और जांच जारी है।

युवा राजद हजारीबाग के युवा जिला अध्यक्ष बने मनीष

हजारीबाग। हजारीबाग राजद के युवा जिला अध्यक्ष मनीष कुमार को मनोनीत किया गया। मनीष को गुरुवार को रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में युवा अध्यक्ष रंजन कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव द्वारा पत्र दिया गया। साथ ही युवा अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष ने शुभकामनाएं दी और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में धीरज यादव, नरेन्द्र कुमार, रितेश यादव, निलेश यादव, प्रदीप मेहता सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।

जेसीएम के कॉलेज सचिव ने थामा एबीवीपी का दामन

भेदिनीनगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पलामू जिले अंतर्गत भेदिनीनगर के गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय के किसलय दुबे ने 6 मार्च दिन बृहस्पतिवार को अभाविप के प्रमंडलीय कार्यालय में प्रदेश सह मंत्री अभय वर्मा एवं जिला संयोजक नीतीश दुबे के उपस्थिति में अभाविप का सदस्यता ग्रहण किया। किसलय दुबे जेसीएम के कॉलेज इकाई के सचिव पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हमें वहां पर कार्यकर्ताओं से वह भाव नहीं मिला पा रहा था जो भाव हमें चाहिए था। फिर हमने विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनने का सोचा जो कि राष्ट्र हित के लिए सदैव कार्य करती रहती है।

तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल

लातेहार। जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के डोरमी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान बरवाडीह के हुटार गांव निवासी अर्जुन कुमार (30) पिता भोला कुमार के रूप में की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अर्जुन कुमार डालटनगंज से अपने घर लौट रहे थे, तभी अचानक तेज गति से आ रहे ट्रक (जेएच-01 जे-9262) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी और घायल को बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

सभी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दे सरकार : सत्येंद्र नाथ तिवारी

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
गढ़वा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को गढ़वा विधायक सह विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। राज्य की सभी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने की मांग की। श्री तिवारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पूर्व अपनी घोषणा पत्र में राज्य की सभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया था। चुनाव जीतते ही सरकार अपने वादे से मुकर गई। मईया सम्मान योजना में नया नियम लागू कर राज्य की लाखों महिलाओं को योजना से वंचित करने का काम कर रही है। यह महिलाओं के साथ धोखा है। गढ़वा विधायक ने सरकार से सभी महिलाओं के साथ-साथ सेविका, सहायिका, विधवा, दिव्यांग और वृद्ध महिला को भी 2500 रुपये प्रति महीना देने के लिए विधानसभा में प्रश्न उठाया था। इस पर मंत्री के जवाब पर श्री तिवारी ने अर्सेतोष जाहिर किया। विधानसभा अध्यक्ष से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

बामनगुट्ट जलाशय की मरम्मत का मुद्दा विधानसभा में उठाया सुखराम उरांव ने

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
चक्रधरपुर। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखराम उरांव ने गुरुवार को विधानसभा में बामनगुट्ट जलाशय की मरम्मत का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार इस जलाशय की विशेष मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यों? विधायक उरांव ने बताया कि बामनगुट्ट जलाशय बिहार सरकार द्वारा बनवाया गया था, लेकिन समय-समय पर मरम्मत न होने के कारण इसमें गाद भर गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार द्वारा निर्माण के बाद से



आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है।

में संबंधित विभाग ने कहा कि योजना का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। बजट प्रावधान और निधि की उपलब्धता को देखते हुए आगामी वर्षों में जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा सकेगा। विधायक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जलाशय क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी तत्काल मरम्मत होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की।

सिवाना तक, गेरुवा भेड़ियाही मोड़ से यूरिया नदी तक, तेनार पाईका टोला पीच रोड से बथाना होते हुए वनसीमा तक सड़क निर्माण की मांग की।

होटल और मिठाई दुकानों की नियमित जांच करने के आदेश

पश्चिमी सिंहभूम में होली और रमजान की तैयारी, प्रशासन ने कसी कमर

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
चाईबासा। होली और रमजान के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कसर कस ली है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित कर इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और सभी आयोजन स्थलों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहें। उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं पर भी कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील रखने और एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को होटल और मिठाई दुकानों की नियमित जांच करने का आदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तंत्रों को सक्रिय रखना जरूरी है। उन्होंने किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने और जिला स्तर पर भी जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से लगातार संपर्क में रहने और उनके नंबर कंट्रोल रूम में रखने के लिए कहा।

उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और सभी आयोजन स्थलों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहें। उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं पर भी कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील रखने और एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा।



हजारीबाग में हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की मांग को लेकर सीएम से मिले मनीष जायसवाल

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
हजारीबाग। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल हजारीबाग में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर सक्रिय हैं। बुधवार को उन्होंने झारखंड विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया और हजारीबाग हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण करते हुए निर्माण कार्य को अचल शुरु करने की मांग की। इस संबंध में सांसद मनीष जायसवाल ने सीएम हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी सौंपा। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि हजारीबाग में हवाई अड्डा निर्माण होने से हजारीबाग के साथ-साथ आसपास के कई जिलों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी। इसका



निर्माण कार्य राज्य सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण कई वर्षों से लंबित है। सांसद मनीष जायसवाल ने यह भी बताया कि हजारीबाग में हवाई अड्डा के निर्माण हो जाने से यात्रियों को सुविधा के साथ-साथ, इस क्षेत्र ने व्यापार एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

बच्चों को पढ़ाने के अलावे उनके समग्र विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता : उपायुक्त

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
हजारीबाग। उपायुक्त नैसी सहाय की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने समग्र शिक्षा अभियान के गतिविधियों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, खेलो झारखंड एक्सपेंडिचर, यूको क्लब एक्सपेंडिचर, विद्यालय में बच्चों की इनरोलमेंट, पोषाक वितरण, डिजिटल शिक्षा, साइकिल वितरण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं अन्य विद्यालय में सत्र 2024-25 का नामांकन, स्कूल कीट, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई के माध्यम से चयन, आईसीटी प्रोग्राम एवं



स्मार्ट क्लास, छात्रवृत्ति, विद्यालयों लायब्रेरी की उपलब्धता व मध्यह्न भोजन से संबंधित समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उपायुक्त सहित बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों को वर्तमान में जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं से अवगत कराया गया। बैठक में उपायुक्त ने बच्चों का आधार बेसिस अपार आईडी बनाने में आ रही है समस्या से अवगत हुई एवं इसे दूर करने के

लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने यूनिफॉर्म के लिए कक्षा 3 से 12 के छात्र-छात्राओं का शत प्रतिशत आंकड़ा जिला में 2 दिन के अंदर उपलब्ध करवाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारी से कहा मध्यान भोजन मेन्यू के अनुसार उपलब्ध करवाने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। मध्यान भोजन से संबंधित किसी

मध्य प्रदेश के दीपेंद्र यादव व राजदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
गोमिया (बोकारो)। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अंतर्गत मोरार निवासी दीपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के भुवनेश्वर निवासी राजदीप सिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम ने सुनाई सजा

मालूम हो कि यादव के सुचक उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी कुलदीप सिंह बाना ने चतुरी चट्टी थाना प्रभारी के सम्पर्क अभियान दर्ज कराया था। श्री सिंह ने दर्ज कराया कि? वह सीआरपीएफ 226 बटालियन में निरीक्षक/जीडी के पद पर कार्यरत हैं। 19 दिसंबर, 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 में ड्यूटी के लिए 34 गोमिया विधानसभा बोकारो के चतुरी चट्टी थाना अंतर्गत उल्का मध्य विद्यालय कुर्कनालो क्लस्टर पर कंपनी के साथ आया था। जहां रात करीब 8:45 बजे सहायक उप निरीक्षक पूनानंद भुईयां और आरक्षी दीपेंद्र यादव के बीच झड़प हुई। इसके बाद दीपेंद्र यादव कुर्कनालो क्लस्टर के नए भवन में गए, जहां पर वे रहते थे। वहां अपने बेड से अपना एक-47 राइफल लेकर भवन से बाहर निकल कर रोड पर से ही फायर करते हुए क्लस्टर के पुराने भवन के तरफ आने लगे और केपेस में प्रवेश कर अंधाधुंध फायर करने लगे, जिसमें पूनानंद भुईयां घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर कंपनी कमांडर साहल हरजन अग्रम कर्म से अपना एक-47 लेकर आए तो उनकी भी दीपेंद्र यादव गोली मारकर घायल कर

दिया। आरक्षी हरिश्चंद्र खाखोली भी इस गोली कांड में घायल हो गए। घटना कारित करने के बाद दीपेंद्र यादव भागने लगे। भागने के क्रम में गिरने के कारण उन्हें भी चोट लगी। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल आईएल भेजा गया, जहां डॉ. द्वारा पूनानंद भुईयां और साहल हरजन को मृत घोषित कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए हरिश्चंद्र खाखोली और दीपेंद्र यादव को चॉपर के द्वारा रांची भेजा गया। इस घटना क्रम में आरक्षी राजदीप सिंह के हाथ में भी एक-47 देखा गया। दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह दोनों ने काफी शराब पी रखी थी। उक्त बयान के आधार पर चतुरी चट्टी थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज प्रथम ने हत्या मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की।

सिंगर अमित गुप्ता के साथ बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी गीतों पर झूमे लोहरदगावासी

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
लोहरदगा। साहू परिवार और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले शुरू हुए चार दिवसीय टी20 क्रिकेट एलपीएल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में देर रात भव्य रंगारंग समारोह का बीएस कॉलेज स्टेडियम निकट प्रसाद में आयोजन हुआ। समारोह का शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष सह पूर्व उपायुक्त डॉ. वाधमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी हरिश बिन जर्मा, डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत, एसडीओ अमित कुमार, एसडीपीओ ब्रह्मा केरकेट्टा, निशित जायसवाल, एफडी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हाजी हब्बुल जब्बार, विशाल डुंगडुंग, रोहित ओझा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।



मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि लोहरदगा जिला छोटा है, परंतु खेल के क्षेत्र में आगे है। इसमें हमारे बड़े भाई स्व शिव प्रसाद, नंदलाल साहू और परिवार का अहम योगदान है।

यह स्टेडियम राज्य स्तर का है। खिलाड़ियों के लिए यहां तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। जिले के खिलाड़ी भी यहां प्रेक्टिस कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोहरदगा का नाम रोशन कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि क्रिकेट के क्षेत्र में बेहतर भविष्य है। खिलाड़ी अनुशासन में रहकर पढ़ाई करते हुए भी इसमें करियर बना सकते हैं। अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। मौके पर पहुंचे प्लेबैक सिंगर अमित गुप्ता ने एक से बढ़कर एक

प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ टीम की कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर किया गया। इसके बाद तेरे नाम से जी लू, तेरे नाम पे मर जाऊं.. गीत के साथ सिंगर अमित गुप्ता ने स्टेज पर शानदार इंटी ली। अमित ने अपनी फेमस गीत राधे राधे वो राधे राधे... गीत की लाइव प्रस्तुति रखी। 80, 90 के दशक में फेमस हुए गीतों को भी नए अंदाज में उन्होंने लोहरदगावासियों के समक्ष रखा। उनकी रिलीज नई एलबम का उन्होंने प्रमोशन भी किया। इसके बाद भोजपुरी गीतों पर

भी लोहरदगावासियों ने खूब ठुमके लगाए। मौके पर मुख्य रूप से हर्षित साहू, रूची साहू सहित एसोसिएशन सचिव आलोक राय, भास्कर दास गुप्ता, नेयाज मल्लिक, आशीष कुमार, उदय गुप्ता, संजय बर्मन, संदीप गुप्ता, चन्द्रकिशोर प्रसाद, अमित कुमार, जयजीत चौबे, विशाल डुंगडुंग, आकाश कुमार, रोहित ओझा, नितिन सिंह, कविश जायसवाल, हिमांशु केशरी, दुर्गा प्रजापति, अभय वर्मा, सतीश वर्मा, मृत्युंजय चौबे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

कई खाद्य प्रतिष्ठानों में चला जांच अभियान

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
हजारीबाग। उपायुक्त नैसी सहाय एवं एसोसिएओ डॉ. शशि जायसवाल के निदेशानुसार खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के द्वारा भगत नटदय की प्रस्तुति, भोजपुरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने शाददा स्वीटव एंड फैमिली रेस्टोरेंट, बाला जी होटल, चिकन हास बाँक्स आदि खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी होटल एवं रेस्टोरेंट के संचालकों को भी चेक करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को चेक करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को चेक करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को चेक करने का निर्देश दिया।

महोत्सव को आने वाले सालों में और भी मव्य तरीके से मनाया जाएगा : मंत्री

प्रातः नागपुरी प्रतिनिधि
देवघर। जिले में तीन दिवसीय राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव-2025 का शुभारंभ 6 मार्च को हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग व पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। इस दौरान उमकेश सांसद नलीन सोरेन, देवघर विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमार, सताल परगना कमिश्नर लालचंद डांडेल, देवघर उपयुक्त विशाल सागर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव नरचा की समृद्ध, संस्कृति और धार्मिक विविधता को

दशाती है। हमारा प्रयास है कि महोत्सव को आने वाले सालों में और भी भव्य तरीके से मनाया जाए। पर्यटन मंत्रालय इसे राज्य का भव्य उत्सव बनाने के लिए काम करेगा। महाशिवरात्री व शिव बारात के सफल आयोजन बाद राज्य सरकार द्वारा राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में किया जा रहा है। प्रयास है कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाय। इस दिशा में लगातार कार्य भी किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि आज से तीन दिनों तक चलने वाले राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव को देवघर की जनता के भावना अनुरूप एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया है। इसके अलावे आने



उद्घाटन भी किया। महोत्सव में उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि भारत में लोक कला और

संस्कृति की एक समृद्ध परंपरा रही है। राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव के माध्यम से उन पारंपरिक लोक नृत्य विधाओं का

प्रचार-प्रसार किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों के अलावा लोक कलाओं को बढ़ावा देना और लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कला को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि देवघर में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, ताकि देवघर को मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। सभी के सहयोग से आयोजित राजकीय

तीन दिवसीय राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव-2025 का शुभारंभ

प्रचार-प्रसार किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों के अलावा लोक कलाओं को बढ़ावा देना और लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कला को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि देवघर में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, ताकि देवघर को मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। सभी के सहयोग से आयोजित राजकीय

बैद्यनाथ महोत्सव एक नई ऊंचाईयों को छूएगा। महोत्सव की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गयी, जिसके पश्चात सुमित दास द्वारा महादेव के रूप डमरू वादक से जुड़ी प्रस्तुति से लोगों का मनमोहा। महालक्ष्मी देवी गुण द्वारा कथक नृत्य, मानसी तिवारी द्वारा भजन, पल्लवी रॉय, प्रकाश चंद्र गुग्गी की प्रस्तुति, भोजपुरी लोकनृत्य चंदन तिवारी, छड नृत्य कला केन्द्र सरायकेला एवं बॉलीवुड रॉकस्टार रितुराज तिवारी द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गयी। राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन 8 मार्च तक किया जाएगा। इसमें स्थानीय, राज्यस्तरीय कलाकारों के साथ बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी।

संक्षिप्त

झारखंड युवा छात्र मोर्चा मनायेगा महिला दिवस

बोकारो। चास प्रखंड उत्तर विस्थापित क्षेत्र के तेनु बोकारो नहर के सामने झिकलपा फुटबॉल ग्राउंड में झारखंड युवा छात्र मोर्चा की ओर से आगामी आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जायेगा। मोर्चा के अध्यक्ष शिवचंद्र मुर्मू ने बताया कि कार्यक्रम में चार पंचायत के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। पारंपरिक तरीके से सबों का स्वागत सरना गामछा देकर सम्मानित किया जायेगा। गांव की बालिकाओं का मनमोहक नृत्य कार्यक्रम शामिल है। सचिव विश्वेश्वर हेम्रम कोषाध्यक्ष अमन किस्को, उदित हांसदा, शिवम किस्को, मनोहर सोरेन आदि तैयारी कर रहे हैं।

दुकानों के स्वामित्व की केवाईसी खत्म

बोकारो थर्मल। बोकारो थर्मल डीवीसी सेंट्रल मार्केट स्थित दुकानों के स्वामित्व संबंधी केवाईसी की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद प्रबंधन तथा कार्रवाई करेगा, इसको लेकर दुकानों के वर्तमान मालिकों में बेवैनी देखी जा रही है। डीवीसी के भू-संपदाधिकारी अविनाश कुमार सिन्हा ने मार्केट स्थित सभी दुकानों के मालिकों को प्रबंधन द्वारा उन्हें आवंटित दुकानों के स्वामित्व को प्रमाणित करने को लेकर केवाईसी जमा करने की नोटिस जारी की थी। सभी दुकानदारों को 28 फरवरी तक केवाईसी जमा करनी थी। प्रबंधन को जानकारी मिली है कि डीवीसी मार्केट की ज्यादातर दुकानों के उनके वास्तविक मालिकों ने बिना डीवीसी प्रबंधन को सूचित किये हुए दूसरों के हाथों बेच डाला है, जबकि वैसे मालिकों को दुकान नहीं चलाने की स्थिति में अपना दुकान प्रबंधन को सौंप देना है।

शिक्षक के निधन पर शोकसभा आयोजित

बोकारो। राजवल्लभ +2 उच्च विद्यालय, साणडी, रामगढ़ के 2024 बैच के नवनिर्भूत युवा पीजीटी शिक्षक मो. सलमान के असाधारण निधन से पूरे शिक्षा जगत में गहरा दुःख व्याप्त है। अपने शिक्षक साथी के इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले जाने से शोककुल पीएम श्री एस एस +2 उच्च विद्यालय कसमार के सभी शिक्षकगण ने विद्यालय प्राचार्य फारुक अंसारी एवं झारखंड +2 शिक्षक संघ, बोकारो के सचिव डॉ. अवनशी कुमार झा के नेतृत्व में शोकसभा का आयोजन कर दिवंगत मेधावी शिक्षक के नेतृत्व एवं कृतित्व को याद किया एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

बीएसएल में नवीनीकृत टिपलर नंबर 03 का शुभारंभ

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि
बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट के आरएमएचपी (रॉ मेंटेरियल हैंडलिंग प्लांट) विभाग के नवीनीकृत टिपलर नंबर 03 का उद्घाटन गुरुवार को अधिशासी निदेशक (संकाय) सी आर महापात्रा ने किया। इस मौके पर मुख्य महाप्रबंधक (आरएमएचपी) धनञ्जय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (सर्विसेज) पी के बैसाखिया, मुख्य महाप्रबंधक (मैकेनिकल) प्रकाश तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक (सिंटर प्लांट) पीताम्बर चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक (सोईडी) शालिग्राम सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (शॉप्स) जे वी शेखर के साथ



आरएमएचपी विभाग के वरिष्ठ अधिशासी कर्मचारीगण तथा सविदाकर्म उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद आरएमएचपी विभाग में टिपलर नंबर 03 का आज से संचार एवं सुरक्षित संचालन आरंभ हो गया है। आरएमएचपी विभाग में कुल पांच टिपलर का उपयोग होता है और

कोयले के अलावा इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के कच्चे माल (रॉ - मेंटेरियल) जैसे कि आवरन ओर, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, पैलेट, सिंटर इत्यादि को आरएमएचपी विभाग में रेलवे वैगन के द्वारा लाया जाता है। टिपलर के द्वारा रेलवे वैगन के कच्चे माल को हॉपर में डाला जाता है, जहां से बे-फीडर के द्वारा इसे अलग-अलग बेड्स में ब्लेंडिंग और स्टैकिंग किया जाता है। ब्लेंडेड कच्चे माल को ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट या आरएमपी विभाग की जरूरत के अनुसार कन्वेयर बेल्ट के द्वारा संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाता है।

झारखंड-बिहार से एकमात्र बोकारो का आयुष आईएनएमओ में सफल

एशिया पैसिफिक मैथमेटिकल ओलंपियाड और अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के ट्रेनिंग कैंप में लेगा हिस्सा

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि
बोकारो। डीपीएस (दिल्ली पब्लिक स्कूल) बोकारो में 10वीं कक्षा के मेधावी छात्र आयुष लच्छीरामका ने अपनी शानदार गणितीय प्रतिभा की बदैलत न केवल अपने विद्यालय और शहर, बल्कि पूरे झारखंड-बिहार का नाम गौरवान्वित किया है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (एचबीसीएसई) द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स (एनबीएचएम) के तत्वावधान में आयोजित इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड (आईएनएमओ) में आयुष ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही वह आगामी 08-31 मई 2025 को चेन्नई (तमिलनाडु) में होने वाले आईएनएमओटीसी (इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप) के लिए



थी क्वालीफाई कर चुका है। उसे 11 मार्च 2025 को आयोजित एपीएमओ (एशिया पैसिफिक मैथमेटिकल ओलंपियाड) के लिए भी चयनित किया गया है। पूरे झारखंड-बिहार से यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाला आयुष एकमात्र विद्यार्थी है। आईएनएमओटीसी के लिए पूरे भारतवर्ष से 69 तथा एपीएमओ के

लिए कुल 67 छात्र-छात्राएं चयनित किए हैं। उसकी इस महत्वपूर्ण कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गुरुवार को विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए.एस. गंगवार ने उसे बधाई दी तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय छात्र की मेहनत, शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन तथा विद्यालय के बेहतर शैक्षणिक वातावरण को दिया है। आयुष ने भी प्राचार्य एवं शिक्षकों सहित पूरे विद्यालय परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आईएनएमओ में ए कैटेगरी (कक्षा 8-11) और जूनियर बैच के प्रतिभागी आयुष लच्छीरामका ने अपने कट ऑफ मार्क्स 31 से भी अधिक कुल 41 अंक प्राप्त किए हैं। जातव्य है कि इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड

(आईएनएमओ) एक हाई स्कूल गणित प्रतियोगिता है, जो वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। यह अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के लिए भारतीय टीम की चयन प्रक्रिया का द्वितीय चरण है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (एचबीसीएसई) द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स

(एनबीएचएम) के तत्वावधान में यह परीक्षा आयोजित की जाती है। चेन्नई में मई में होनेवाले ट्रेनिंग कैंप के बाद अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को इंटरनेशनल मैथमेटिकल (आईएमओ) में भाग लेने का मौका मिलेगा। सफल विद्यार्थी प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित करते हैं।

श्रीराम मंदिर मार्केट में आभूषण चोरी का खुलासा

आरोपी गिरफ्तार, गहने बरामद

ऑनलाइन गेमिंग में हार गया 9 लाख रुपए, तो वापस लौटाने के लिए जेवर दुकान में की चोरी

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ खुलासा



किसी का शक ना हो। लेकिन वह अपने हुलिये से पकड़ा गया। मामले के खुलासे में सिटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार, सेक्टर 12 थाना प्रभारी सुभाष पासवान, सेक्टर 6 थाना प्रभारी प्रभात कुमार, शैलेन्द्र पासवान, एएसआई नीरज सेठ, आरक्षी मदन प्रसाद, सिद्धेश्वर प्रसाद, इलियास अंसारी, आरक्षी विजय कुमार सिंह आदि की अहम भूमिका रही।

पुलिस ने की। एक प्रेसवार्ता में सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि शांति चोर सौनु कुमार को गिरफ्तार कर चोरी गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया कि घटना के बाद एसपी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने

गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए सभी गहने बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी ने अपना जुर्म भी कुबूल लिया है।

थाली 3, चांदी का प्लेट 6, चांदी का कड़ा 1, चांदी का किरा 7, चांदी की मछली 2, चांदी का लोटा 1, चांदी का दीया 2, चांदी का परत चढ़ा नोट 4, चांदी का सिक्का 2, चांदी का ब्रेसलेट 2, चांदी का नाव 1, चांदी का काजलदानी 1, चांदी का मुकुट 1, भगवान का फ्रेम लगा

फोटो 10, सोना जैसा गले का हार 9, सोने का मंगलसूत्र 7, सोने की मांगटिका 3, सोने का कड़ा 3, सोना का चैन 2, सोना की कान बाली 9, सोना की नथुनी 2, सोना के टॉप 42, सोना का झुमका 6, सोने की अंगूठी 9, लॉकेट 7, मोती का माला 5 आदि शामिल हैं।

कुएं में गिरा गिट्टी लदा मालवाहक बाल-बाल बची झड़वर की जान

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि

बोकारो। जिले के कसमार प्रखंड अंतर्गत रांगामाटी गांव में गुरुवार को एक गिट्टी लदा 407 मालवाहक कुएं में गिर गया। घटना में वाहन चालक बाल-बाल बचा। स्थानीय लोगों के अनुसार कुएं के सामने पीसीसी सड़क बन रही थी। इसके कारण मंजूरा की ओर से आ रहा मालवाहक चालक पीछे मोड़कर डायवर्सन पार करना चाह रहा था, लेकिन इसी क्रम में वाहन कुएं में गिर गया। हालांकि कुएं की गहराई और पानी कम था। इससे वाहन चालक सामने का शीशा तोड़कर बाहर निकला। वाहन में सिर्फ चालक ही था। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बोकारो की ओर से मंजूरा सपाहीटांडू स्थित कालेज मोड़ से रांगामाटी चौक तक पथ निर्माण किया जा रहा है।



बोकारो डीसी के समर्थन में आया

मुख्यमंत्री से मिलकर बताएंगे सारी सच्चाई : अनिल

प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि

बोकारो। बोकारो विधायक श्वेता सिंह और जिले की उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव के बीच हुआ विवाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गुरुवार को बोकारो विकास फोरम ने डीसी के समर्थन में अपना मोर्चा खोल दिया। फोरम के अध्यक्ष अनिल सिंह, कांग्रेस के



वरीय नेता रास नारायण सिंह और समाजसेवी धनंजय सिंह उनसे मिले। अनिल सिंह के अनुसार बातचीत के दौरान उपायुक्त ने कहा

जिले में रजिस्ट्री ऑफिस काफी जर्जर होने के कारण वह उसे नए एएसडीओ ऑफिस में शिफ्ट करना चाहती हैं। वहां न तो महिलाओं के

हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री का साधुवाद

प्रधानमंत्री का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा : कुलविंदर

प्रातः नागपुरी संवाददाता
जमशेदपुर। कोमी सिख मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट का साधुवाद किया है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत हेमकुंड साहिब के रोपवे पर 2,730.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किमी रोपवे बनेगा। अभी तीर्थयात्रियों को गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 21



किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह गोविंदघाट से घांघरिया (10.55 किमी) तक मोनोकेबल डिस्टेचबल गोंडोला (एमडीजी) पर आधारित होगा। इसके बाद इसे घांघरिया से हेमकुंड साहिब जी (1.85 किमी) तक सबसे उन्नत ट्राइकेबल डिस्टेचबल गोंडोला (3 एएस) तकनीक से

जोड़ा जाएगा। रोपवे से हर घंटे 1100 और हर दिन 11 हजार यात्री जाएंगे। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 15 हजार फीट है। कुलविंदर सिंह के अनुसार यहां स्थापित गुरुद्वारा मई से सितंबर के बीच साल में लगभग 5 महीने के

पूर्व अवतार में की थी यहां महाकाल की आराधना

इस पवित्र स्थल को रामायण के समय से मौजूद माना गया है, कहा जाता है कि लोकपाल वही जगह है, जहां श्री लक्ष्मण जी अपना मनभानु स्थान होने के कारण ध्यान पर बैठ गए थे। कहा जाता है कि अपने पूर्व के अवतार में गुरु गोविंद सिंह जी ध्यान के लिए यहां आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा बिचित्र नाटक में इस जगह के बारे में अपने अनुभवों का उल्लेख भी किया है। जहां उन्होंने कई बरसों तक महाकाल की आराधना की थी। यह सात पहाड़ों के बीच बफीली झील के किनारे बना है। इस सात पहाड़ों पर निशान साहिब झूलते हैं।

लिए खुलता है। हर साल तकरीबन 2 लाख तीर्थयात्री यहां आते हैं इस अधिवक्ता के अनुसार रास्ता काफी दुर्गम होने के कारण उम्र दराज और कमजोर श्रद्धालु हेमकुंड साहब तक नहीं पहुंच पाते थे, किंतु अब उनकी पहुंच में

यह तप स्थान रहेगा। कुलविंदर सिंह कहते हैं कि इस परियोजना के पूरे होते ही हर सिख इस तपस्थान का दर्शन दीदार कर सकेगा। सिख इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा।

रेलवे स्टेशनों पर ओलचिकी भाषा में उद्घोषणा की मांग

बोकारो। आदिवासी संगेोल अभियान ने रेलवे स्टेशनों पर ओलचिकी भाषा में यात्री अलर्ट सिस्टम की उद्घोषणा और सूचना-प्रदर्शन सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। अभियान की तरफ से बोकारो संगेोल जिला अध्यक्ष सह बोकारो जोनल? हेड सुखदेव मुर्मू ने कहा कि झारखंड राज्य के बोकारो जिला के आद्रा जोन के रेश रेलवे स्टेशन बोकारो स्टील सिटी, तुपकाडीह और राधागांव स्टेशन के इर्द गिर्द क्षेत्रों में संताली भाषा-भाषी प्रेमी लोगों का निवास है।

मैनेजर अजय कुमार हालदर के मार्फत गुरुवार को आद्रा जोन रेलवे मंडल प्रबंधक के नाम ज्ञापन पत्र सुपुर्द किया। बोकारो संगेोल जिला अध्यक्ष सह बोकारो जोनल? हेड सुखदेव मुर्मू ने कहा कि झारखंड राज्य के बोकारो जिला के आद्रा जोन के रेश रेलवे स्टेशन बोकारो स्टील सिटी, तुपकाडीह और राधागांव स्टेशन के इर्द गिर्द क्षेत्रों में संताली भाषा-भाषी प्रेमी लोगों का निवास है।

बीएसएल में महिला अनुबंध कर्मियों के लिए स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन



प्रातःनागपुरी प्रतिनिधि
बोकारो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पृष्ठभूमि में गुरुवार को मानव संसाधन के ठेका श्रमिक प्रकोष्ठ द्वारा बीएसएल में कार्यरत महिला अनुबंध कर्मियों के लिए एक स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया।

नजरअंदाज कर देती हैं। डॉ. जया लक्ष्मी ने महिला स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, स्वास्थ्य देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए। स्वास्थ्य वार्ता में 100 से अधिक महिला सचिव कार्यमियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सुश्री प्रिया प्रेरणा टोप्पो, उप प्रबंधक (एचआर-सीएलसी), सुश्री सोनली गुप्ता, सहायक प्रबंधक (एचआर-सीएलसी), प्रबीर कुमार (एचआर-कल्याण), गौरी शंकर ओहदार, धीरेंद्र कुमार, सुरेंद्र दास, एमडी शादाब अख्तर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बोकारो विकास फोरम

शौचालय, पानी और नदी बैठने का व्यवस्था है। डीसी ने उनसे कहा कि वह एक महिला उपायुक्त हैं। महिलाओं का दर्द समझते हुए जर्जर निबंधन कार्यालय को नए अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में शिफ्ट करना चाहती थी, जिसमें बोकारो विधायक ने हस्तक्षेप कर कहा कि बिना उनसे पूछे वह निबंधन कार्यालय कैसे वहां ले जा रही हैं? विधायक की असहमति को लेकर ही विवाद हुआ। अनिल सिंह ने कहा कि बोकारो में पहली बार कोई महिला जिला

उपायुक्त अच्छी सूझबूझ और जनहित में सही फैसला लेने वाली हैं, जो बिना किसी दबाव के विकास के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द को भी स्थापित करने में लगी हैं। इसके कारण वह बहुत से राजनेताओं की आंख की किरकिरी बनी हुई हैं। श्री सिंह ने कहा - बोकारो उपायुक्त के साथ बोकारो जिला की पूरी जनता खड़ी है। हम राज्य सरकार को बोकारो उपायुक्त की सारी उपलब्धियां की जानकारी बहुत जल्द विधानसभा आयुक्त एवं मुख्यमंत्री से मिलकर देंगे।

बोकारो थर्मल में महिलाओं ने होली मिलन समारोह में उड़ाये गुलाल

बोकारो थर्मल। बोकारो थर्मल में गुरुवार को डीवीसी कामगारों की पत्नियों की संस्था बोकारो ब्यूटी वीन ने होली मिलन समारोह का आयोजन ई टाइप कॉलोनी में किया। होली मिलन समारोह में महिलाओं ने एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाकर, ढोल बजा, होली गीत गाकर खूब होली खेली। साथ ही सभी ने होली के अवसर पर क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिलाओं ने कहा कि समाज के विकास के लिए हम सभी अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और हम महिलायें अपनी एकता को बनाए रखकर समाज हित में मिलकर कार्य करना है। कहा कि होली के त्योहार में दूसरे समुदाय के लोगों की भी भावनाओं का ख्याल रखें, ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़े, क्योंकि उनके भी इबादत का माह रमजान चल रहा है। मौके पर अंजली सिन्हा, पम्मी कुमारी, शालिनी श्रीवास्तव, रश्मि, नीतू, बॉबी, श्रावणी, कंचन आदि शामिल थीं।



10 मार्च से नए अनुमंडल कार्यालय में संचालित होगा चास अवर निबंधन कार्यालय

बोकारो। पुराने चास अनुमंडल कार्यालय परिसर में पूर्व से संचालित अवर निबंधन कार्यालय, चास को भवन प्रमंडल द्वारा निष्पाद्योजित घोषित किये जाने के बाद आगामी 10 मार्च से चास के नवनिर्मित अनुमंडल कार्यालय भवन में भू-तल से नए अवर निबंधन कार्यालय का संचालन होगा। यह जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। दरअसल, पुराने अनुमंडल कार्यालय के भवन की स्थिति अत्यंत ही जर्जर होने एवं इसके खिड़की, दरवाजा, छत की जर्जर स्थिति, सुरक्षा का अभाव आदि के कारण निबंधन से संबंधित अति महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही, पुराने अनुमंडल कार्यालय को नये भवन में हस्तांतरित होने के कारण पुराना अनुमंडल कार्यालय परिसर असुरक्षित हो गया है। वहां लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। फलस्वरूप जिला प्रशासन ने तत्पश्चात् चास के आईआईटी मोड़ के समीप स्थित नवनिर्मित अनुमंडल कार्यालय भवन में भू-तल में नए अवर निबंधन कार्यालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। दिनांक-10.03.2025 से अवर निबंधन कार्यालय, चास का संचालन नये अनुमंडल कार्यालय के भू-तल से होगा।



मनरेगा का प्रखंडस्तरीय सामाजिक अंकेक्षण शुरू



गोमिया (बोकारो)। गोमिया प्रखंड कार्यालय सभाकक्ष में मनरेगा अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण की जनसुनवाई एवं सकलन 2023-24 का काम गुरुवार को शुरू हुआ। इस अवसर पर बीडीओ महादेव कुमार महतो, डीआरपी कुलदीप मिश्र, लोकपाल मनरेगा बोकारो भूपेंद्र श्रीवास्तव, बीपीओ आशीष रंजन, मनोहर दास, सहायक अभियंता अरविन्द कृष्ण खास आदि मौजूद रहे। डीआरपी कुलदीप मिश्र ने बताया कि इस सामाजिक अंकेक्षण के तहत जनसुनवाई करना, मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जांच करना और मनरेगा के तहत योजनाओं की गुणवत्ता और उसके प्रभाव को पता लगाना है। उन्होंने ने यह भी बताया कि अब तक गोमिया प्रखंड की 14 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी पंचायतों में प्रतिवेदन की जांच चल रही है। मौके पर कनीय अभियंता अभय कुमार, मो डकडाल, सोनू मंडल रोजगार सेवक पन्नालाल शर्मा, एकराम शम्सी, खुलेश्वर महतो, विशाल डे, कपिलदेव रविदास, मुकेश प्रजापति, छोटेलाल रजक सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

नशे के खिलाफ कारगर साबित हो महत्वाकांक्षी युद्ध



ललित गर्ग

दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बिना कोई भी कार्रवाई स्थायी परिवर्तन लाने में विफल ही रहेगी। सीमा पर सख्त नियंत्रण करने, न्यायिक दक्षता और समाज को जागरूक करने की जरूरत है। केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर नासूर बनती इस समस्या को जड़मूल से समाप्त करने के लिये कसर कसे। वैसे नशे को समाप्त करने के महत्वाकांक्षी युद्ध में आप सरकार विजयी होती है तो यह उसकी बड़ी सफलता होगी।

पंजाब में आतंकवाद की ही तरह नशे एवं ड्रग्स के धंधे ने व्यापक स्तर पर अपनी पहुंच बनाई है, जिसके दुष्परिणाम पंजाब के साथ-साथ समूचे देश को भोगने को विवश होना पड़ रहा है। पंजाब नशे की अंधी गलियों में धंसता जा रहा है, सीमा पार से शुरू किए गए इस छद्म युद्ध की कीमत पंजाब की जनता को चुकानी पड़ रही है, देर आये दुस्तुर आये की भांति लगातार चुनौती बने नशीली दवाओं एवं ड्रग्स के धंधे के खिलाफ आप सरकार ने एक महत्वाकांक्षी युद्ध एवं अभियान शुरू किया है। तीन महीने के भीतर इस समस्या का खान्ता करने का सरकार दावा खोखला साबित न होकर सकारात्मक एवं प्रभावी परिणाम लाये, यह अपेक्षित है। इसी क्रम में विभिन्न सरकारी विभागों ने सैकड़ों छापे डाले, तीन सौ के करीब गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई। निस्संदेह, यह कार्रवाई अभियान उग्र, आक्रामक व तेज है, लेकिन ऐसे अभियान चलाने के दावे विगत की भांति कोरा दिखावा न साबित हो, यह देखना जरूरी है। दरअसल, सबसे बड़ा संकट यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में हेरोइन उत्पादन के केंद्र-गोल्डन क्रिसेंट के निकट होने के कारण पंजाब लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जूझ रहा है। जरूरत है मान सरकार का नशा एवं नशे के कारोबार के खिलाफ जारी अभियान कामयाबी की नई इबारत लिखे। ताकि नशे के जाल में फंसे युवाओं एवं आमजन को बचाया जा सके। ड्रग्स उपभोग के मामले में पंजाब की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बन गई है। पंजाब के 26 प्रतिशत युवा चरस, अफीम तथा कोकीन व हेरोइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स लेने में लिप्त हैं। इसमें शराब आदि का डाटा शामिल नहीं है। पंजाब देश में ड्रग्स में सर्वाधिक संलिप्त राज्यों में आता है। यह डाटा गतदिवसों गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हामादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षाह्वार पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में सामने आया। पंजाब के बॉर्डर एरिया के गांवों व कस्बों में ही ड्रग्स की मार देखने को मिलती थी। सरकार नशे को खत्म करने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और प्रदेख को मिलती है। युवाओं की रगों में नशे का जहर घोला जा रहा है। बड़े शहर नशे के हॉट-स्पॉट बनते जा रहे हैं। बटेंडा, पटियाला, होशियारपुर, अमृतसर और लुधियाना जैसे बड़े शहरों में हालात चिंताजनक हैं। इसका असर प्रदेश की मौजूदा पीढ़ी पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पुरतों पर भी पड़ने लगा है। इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या हम इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने का



कोई प्रभावी उपक्रम कर रहे हैं? दरअसल, इस संकट के मूल में जहां राजनीतिक जटिलताएं, सीमा से जुड़ी समस्याएं, पाकिस्तान के पड़वंत्र हैं, वहीं युवाओं के लिये रोजगार से जुड़े विकल्पों की भी कमी है। पंजाब में नशे की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट भी चिन्ता व्यक्त करता रहा है, अपनी नाजगगी व्यक्त करते हुए उसने पंजाब सरकार को फटकार भी समय-समय पर लगाई है। अगर कोई पड़ोसी देश चाहे तो नशे के आतंक से देश को खत्म कर सकता है। अगर बॉर्डर क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो कैसे सीमाओं की सुरक्षा होगी? नशा माफिया के आगे बेबस क्यों है पंजाब सरकार? सुप्रीम कोर्ट की चिन्ता पंजाब में नशे की गंभीर चुनौती को देखते हुए वाजिब है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व में ह्यड्रग्स-फ्री इंडियाह्वार अभियान चलाने की बात कहकर इस राष्ट्र की सबसे घातक बुराई की ओर जागृति का शंखनाद किया है। विशेषतः पंजाब के युवा नशे की अंधी गलियों में धंसते जा रहे हैं, वे अपनी अमूल्य देह में बीमार फेफड़े और जिगर सहित अनेक जानलेवा बीमारियां लिए एक जिन्दा लाश बने जा रहे हैं पौरुषहीन भौंड का अंग बन कर। ड्रग्स के सेवन से महिलएं बांझपन का शिकार हो रही हैं। पुरुषों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पंजाब में औषत हर एक व्यक्ति की ड्रग्स की ओवरडोज के कारण मौत हो रही है। नशे के ग्लैमर की चकाचौंध ने जीवन के अस्तित्व पर चिन्ताजनक स्थितियां खड़ी कर दी है।

पाकिस्तान नशे के आतंक से अपने मनसुंवों को पूरा कर रहा है। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन, तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है एवं पागल तथा सुनातवस्था में हो जाता है। ये ऐसे उतेजना लाने वाले पदार्थ हैं, जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठा है। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है। नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है या अपराध की अंधी गलियों में धंसता चला जाता है, पाकिस्तान युवाओं को निस्तेज करके एक नये तरीके के आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। पंजाब सरकार की ताजा सख्त कार्रवाई का संदेश नशा माफिया को जाना जरूरी है कि इस काले कारोबार से जुड़े लोगों की दंडमुक्ति संभव नहीं है। इसके अलावा सीमा पार से चलाए जा रहे नशे के कारोबार के लिये पड़ोसी देश को भी कड़ा संदेश जाना चाहिए। नशे की तस्करी में मामाम आधुनिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, बीएसएफ ने पहल करते हुए एंटी-ड्रैगन सिस्टम लगाए हैं। जिसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं। पंजाब में नशे की गंभीर चुनौती को देखते हुए सीमा सुरक्षा को फुलपूफ करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिये। जिसमें उच्च तकनीक व विभिन्न एजेंसियों में बेहतर तालमेल की जरूरत है।

पंजाब पुलिस की नशे से जुड़े आतंकवदी तंत्र की जांच करने की सीमित क्षमता है, खासकर, इस समस्या का मुकाबला करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक उपकरणों की उसके पास कमी है। पंजाब में राजनीति और ड्रग्स का चोली दामन का संबंध है, बड़ी राजनीतिज्ञ पार्टियों की नशा माफिया एवं नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ काफी मिलीभगत है और यही वजह है कि पंजाब ह्वानशीले पदार्थों की राजनीतिह्वार के युग से गुजर रहा है। इसलिये भी यह समस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही है। प्रदेश की मौजूदा सरकार ने भी सत्ता संभालते ही दो साल के अंदर ड्रग्स का खान्ता करने का एलान किया था, लेकिन जो हालात आज से दो साल पहले थे, वह जस के तस बने हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि सरकार एवं ड्रग्स माफिया का चोली दामन का संबंध है। जिससे समय के साथ प्रदेश में ड्रग्स का चलन बढ़ा है। प्रदेश में हेरोइन, अफीम, गांजा, चरस के अलावा अन्य नशों के साथ कैम्पूल और नशीली दवाइयों का चलन बढ़ने लगा है। अकेले एस्टीएफ ने पंजाब भर में अलग-अलग जगहों पर छापामारी कर 2 करोड़ 68 लाख 77 हजार 596 कैम्पूल व नशीली दवाइयां पकड़ी हैं। कैम्पूल और नशीली दवाइयों का चलन ज्यादातर फरीदकोट, बटेंडा और पटियाला क्षेत्र में बढ़ा है। पूर्व सरकारों ने तो दावे दिये हैं कि जीवन अनमोल है। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चार हफ्ते में नशे के कारोबार को खत्म करने का वादा किया था। इससे पहले बादल के नेतृत्व वाली अकाली सरकार की भी नशे के खिलाफ शुरु की गई लड़ाई सिरि नहीं चढ़ सकी। दरअसल, नशे के कारोबार से जुड़े बड़े माफिया के खिलाफ कारगर कार्रवाई न हो सकने के कारण ये अभियान प्रभावी नहीं हो पाते। आखिर क्या वजह है कि भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद नशीली दवाओं की बड़ी खेप पंजाब में आसानी से प्रवेश कर जाती है। जो व्यवस्थागत संरचनात्मक मुद्दों की खामियों की ओर इशारा करती है। दरअसल, दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बिना कोई भी कार्रवाई स्थायी परिवर्तन लाने में विफल ही रहेगी। सीमा पर सख्त नियंत्रण करने, न्यायिक दक्षता और समाज को जागरूक करने की जरूरत है। केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर नासूर बनती इस समस्या को जड़मूल से समाप्त करने के लिये कसर कसे। वैसे नशे को समाप्त करने के महत्वाकांक्षी युद्ध में आप सरकार विजयी होती है तो यह उसकी बड़ी सफलता होगी। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

भाषाई अमदरात

किसी को मियां-तिया या पाकिस्तानी कहना गलत हो सकता है मगर यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ मामला बंद करते हुए यह टिप्पणी की। मामले में शिकायतकर्ता उर्दू अनुवादक और कार्यवाहक बाबू द्वारा धारा 298 के तहत दर्ज कराए गए अपराधिक मामले में आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता सूचना सौंपने के लिए आरोपी के निवास गया था। दस्तावेज को स्वीकारने से मना करने के दौरान उसने शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौची की और धार्मिक अपशब्द भी कहे। परिणामस्वरूप 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के साथ ही 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), 353 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या अपराधिक बल) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिस पर मजिस्ट्रेट ने सजा न लिया और आरोपी को तलब किया। हालांकि विभिन्न धाराओं के तहत पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते उसे रिहा कर दिया गया था। इन बयानों को अदालत द्वारा अशोभनीय बताते हुए धार्मिक भावनाओं को न के बराबर आहत करने वाला बताया। लोक सेवक के तौर पर अपने कर्तव्यों का शिकायतकर्ता निर्वहन कर रहा था। लाजिमी में दोनों में गरम बहस के दरम्यान तेज आवाज में गाली-गलौची हुई हो। परंतु कई बार देखने में आता है कि अहंकार के चलते सरकारी नौकर जानबूझकर शिकायतें करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अपने स्तर पर ही दोनों के बीच सुलह करने के प्रयास करने चाहिए थे। जैसा कि सबसे बड़ी अदालत ने माना, मियां-शियां कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। मसलन, आम बोल-चाल में पंडित-शॉइत कहा जाना बुरा नहीं माना जाता। कह सकते हैं कि किसी दूसरे समुदाय के शख्स को पाकिस्तानी कहने से उसे अड़चन हो सकती है क्योंकि उस मुक्त के साथ हमारे रिश्ते तलख हैं। झगड़ों के दरम्यान अमेरिकी या चीनी या किसी अन्य देशवासी के नाम से पुकार कर नीचा नहीं दिखाया जा सकता। परंतु अपना गुस्सा या आक्रोश बगैर गालियों के भी दर्शाया जा सकता है। अस्तुत्त होने पर बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना भी मसलत का हल हो सकता था। आम बोलचाल में अपने समाज में गालियां शामिल होने के बावजूद दफ्तरी शिष्टाचार निभाने के लिए दोनों पक्ष बराबर जिम्मेदार माने जाने चाहिए।

सूक्ति

सच्चाई से जिसका मन भरा है, वह विद्वान न होने पर भी बहुत देश सेवा कर सकता है। - पं. मोतीलाल नेहरु
जो भारी कोलाहल में भी सगीत को सुन सकता है, वह महान उपलब्धि को प्राप्त करता है। - डॉ. विक्रम साराभाई

चिंतन-मनन

सुखी जीवन की राह

एक राजा हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन उससे मिलने एक विचारक आया। उसने राजा से उसकी परेशानी पूछी तो वह बोला - मैं एक सफलतम राजा बनना चाहता हूँ, जिसे प्रजा को हर साधारण जीवन मैन अब तक अनेक सफल राजाओं के विषय में पढ़ा और उनकी नीतियों का अनुसरण किया, किंतु मुझे वैसी सफलता नहीं मिली। लाख प्रयासों के बावजूद मैं एक अच्छे राजा नहीं बन पा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर विचारक ने कहा- जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत कोई काम करता है, तो यही होता है। राजा ने हैरानी जताते हुए कहा - मैंने अपनी प्रकृति के विपरीत क्या काम किया? विचारक बोला - तुम्हें बाकी लोगों पर हुकूम चलाने का अधिकार प्रकृति से नहीं मिला है। तुम जब बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन बिताओगे, तभी तुम्हें आनंद मिलेगा। जंगल में रहने वाले शेर की जान उसकी खाल की वजह से हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि वह बहुत कीमती होती है। इसी वजह से वह रात में शिकार पर निकलता है, इस भय से कि सुंदर खाल के कारण उसे कोई मार न डाले। शेर तो अपनी खाल को नहीं त्याग सकता, किंतु तुम अपनी सफलता के लिए स्वयं को राजा मानना छोड़ सकते हो। जब तक स्वयं को राजा मानते रहोगे, दुख ही पाओगे। राजा को विचारक की बात जंच गई और उस दिन से वह सुखी हो गया। दरअसल अपेक्षा दुख का कारण है। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा न रखें और अपना कर्म करते हुए सहज जीवन जिएं तो निर्मल आनंद की अनुभूति सुलभ हो जाती है।

इलाज पर होने वाले खर्च को कम करती है जन औषधि



कुमार कृष्ण

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों के दखन पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों प्रदान करना है। सरकार के प्रयास के बावजूद अभी भी देश में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। समय आ गया है कि सामुदायिक स्तर पर जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। देश में बढ़ती महंगाई के दौर में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाइयों के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का मुख्य मकसद जन औषधि परियोजना के तहत देश की जनता को उच्च गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयों सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देना जिससे प्रति व्यक्ति इलाज पर खर्च होने वाले व्यय को कम किया जा सके। पिछले 10 वर्षों में जन औषधि परियोजना ने आम जनता के लगभग 30 हजार करोड़ रुपए बचाये हैं। भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएम्बीआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि दाधीच के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में 1236 करोड़ रुपए की दवाइयों जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेची जा चुकी हैं, जिसके माध्यम से देश की आम जनता के लगभग 7000 करोड़ रुपए बचा चुके हैं। व्यक्ति जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयों की कीमतें बाजार में बिक रही

दवाइयों की तुलना में 50 से 80 प्रतिशत तक कम हैं। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2023-24 में 1470 करोड़ रुपए की बिक्री की गयी है जिससे आम जनता के लगभग 7350 करोड़ रुपए बचाये गए हैं। चालू वित्त वर्ष में 28.02.2025 तक 1767 करोड़ रुपए की बिक्री कर ली गयी है। पिछले दस वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में लगभग 185 गुना की वृद्धि हुई है और इसी प्रकार जन औषधि की दवाइयों की बिक्री भी 200 गुना से ज्यादा बढ़ी है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी को सस्ते मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। देश भर में 28.02.2025 तक 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों में सरकार द्वारा खरीदी गयी जेनेरिक दवाइयों बेची जा रही हैं जिनके मूल्य खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों के मूल्यों की तुलना में 50-80 प्रतिशत तक कम होते हैं। वर्तमान में इन केंद्रों पर 2047 दवाइयों एवं 300 अन्य सर्जिकल आदि उत्पाद उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना बिहार के नोडल पदाधिकारी कुमार पाठक के अनुसार प्रधानमंत्री जन औषधि योजना अंतर्गत अभी तक सभी प्रमुख श्रेणियों की दवाइयों जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, गैस्ट्रो, आदि की दवाएं उपलब्ध हैं। जनऔषधि केन्द्रों से बिकने वाली दवाइयों के प्रत्येक बैच को एन ए बी एल प्रत्याभित प्रयोगशालाओं से परीक्षण कराया जाता है। वहीं पी. एच. बी. आई. ने आयुष प्रोडक्ट्स जैसे त्रिफला, शिलाजीत, अश्वगंधा और च्यवनप्रास मेशल जैसे प्रोडक्ट्स भी सस्ते दामों पर जन औषधि केंद्रों के जरिये उपलब्ध कराये हैं। पी एच बी आई. अनेक प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स जो की एफ एस एस आई के अंतर्गत आते हैं उनको भी जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध करवाता है। पिछले दस वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में लगभग 185 गुना की वृद्धि हुई है

और इसी प्रकार जन औषधि की दवाइयों की बिक्री भी 200 गुना से ज्यादा बढ़ी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 29 से भी ज्यादा विशिष्ट श्रेणियों की दवाइयों को रखा गया है। जैसे एंटीबायोटिक्स और एंटी-इन्फेक्टिव, एंटी-एलर्जिक, एंटी-कैंसर, गैस्ट्रो-आंत्र एजेंट, एंटी डायबिटिक, विटामिन और मिनरल्स, कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, फूड सप्लीमेंट्स/ न्यूट्राम्यूटिकल्स, एनालजेसिक और एंटीबायोटिक्स टोपिकल मेडिसिन्स इत्यादि। वहीं 300 सर्जिकल उपकरण एवं अन्य उत्पादों को भी रखा गया है। इनमें मास्क, टाई, आथोपेडिक रिहैबिलिटेशन प्रोडक्ट्स, डायपर, सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर ग्लव्स, सीरिज और सुई, ऑक्सिमीटर, सैनिटरी नैपकिन, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हैं इन दवाइयों को डब्लू एच ओ - जी एम पी सर्टिफाइड दवा उत्पादक कंपनियों से ही खरीदा जाता है। देश के हर हिस्से में दवाइयों पहुंचाने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है जिसके लिए डब्लू एच ओ गाइडलाइन्स पर आधारित केंद्रीय गोदाम गुरुग्राम एवं चार क्षेत्रीय गोदाम जो की गुवाहाटी, सूत, चेन्नई एवं बंगलुरु में उपस्थित हैं। इसके अलावा 36 डिस्ट्रीब्यूटर की भी नियुक्ति की गयी है जहाँ से देश भर के जन औषधि केंद्रों को दवाइयां मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय गोदाम, क्षेत्रीय गोदाम, डिस्ट्रीब्यूटर एवं जन औषधि केंद्रों को पूरी तरह से एस्प.ए.पी आधारित सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है साथ ही साथ सभी केन्द्रों पर पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी लगाया गया है जिससे दवाइयों की आपूर्ति ठीक तरह से हो सके एवं देश के किसी भी केंद्र पर दवाइयों की कमी न हो। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का विस्तार करते हुए अब तक देश में 15000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जन औषधि परियोजना के तहत अब तक पूरे देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिले इस योजना के तहत लाभाभित हो चुके हैं। सरकार ने इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर मार्च 2027

तक 25000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के द्वारा रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। जन औषधि केंद्र कौन भी व्यक्तिगत व्यक्ति, फार्मासिस्ट, उद्यमी, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन इत्यादि, जिनके पास 120 वर्ग फुट की दुकान हो एवं एक प्रशिक्षित फार्मासिस्ट उनके पास हो, जन औषधि केंद्र खोल सकता है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने के पश्चात पी. एच. बी. आई. हेड ऑफिस से प्रिसिपल प्रोडक्ट्स लेटर जारी किया जाता है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम पर लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंसिंग ऑथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद आप पी. एच. बी. आई. से दवाइयां ले सकते हैं। जन औषधि केंद्र संचालक को सरकार की तरफ से मासिक खरीद पर 20% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000/- रुपये प्रति माह होगी। इसे दवाओं की न्यूनतम भंडारण अनिवार्यता से जोड़ा गया है। महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नाथ ईस्टर्न स्टेट्स, पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उनको केंद्र तैयार करने के लिए अलग से दी जाती है। बिक्री करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है। प्रचार-प्रसार सामग्री भी केंद्र संचालक को उपलब्ध कराई जाती है। उद्यमिता और फ्रेंचाइजी मॉडल पर आधारित यह योजना नियमित कमाई के साथ-साथ स्वरोजगार का एक अच्छा स्रोत भी प्रदान कर रही है। भारत में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, इसलिए नियमित आधार पर बिक्री बढ़ रही है जिससे उद्यमियों को अधिक आय का लाभ हो रहा है।

क्या स्कूलों में जरूरी हैं स्मार्टफोन!

सरल ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन बन सकती है, और उसे सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से छात्र आसानी से शैक्षणिक सामग्री, वीडियो और ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच सकते हैं। स्मार्टफोन की मदद से विद्यार्थी किसी भी विषय पर तेज और अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका ज्ञान और समझ, दोनों बढ़ते हैं। साथ ही, स्मार्टनेस भी बढ़ती है, तो इस हिसाब से स्मार्टफोन का उपयोग बच्चों को स्मार्ट फोन में मदद करता है। पढ़ने-सीखने के लिए अब वह समय नहीं रहा जब विद्यार्थी पुस्तकालय एवं पुस्तकों के माध्यम से सीखने को बाध्य थे। आज विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में घंटों बिताने की बजाय स्मार्टफोन पर प्रतिबंध विधिसम्मत नहीं है, और अभी तक विद्यालय में छात्र-छात्राओं द्वारा स्मार्टफोन ले जाने के कोई हानिकारक परिणाम भी सामने नहीं आए हैं। अदालत के इस फैसले ने हलचल पैदा कर दी है। बेशक, आज का युग तकनीकी का युग है, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को भी स्मार्टफोन के उपयोग से रोकने का मतलब उनको तकनीकी के प्रयोग से रोकना है, लेकिन साथ ही साथ देश के अलग-अलग कोनों से विद्यालय परिसर या उसके बाहर किशोरोव्य बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के प्रयोग से अनेक विवादास्पद प्रकरण भी सामने आए हैं। अब एक तरफ उच्च न्यायालय का फैसला हैड्डू तो दूसरी तरफ आम लोगों की राय। स्मार्टफोन के उपयोग से अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया

दूसरा पक्ष भी देखा जरूरी है। स्मार्टफोन में सोशल मीडिया, गैम्स, और अन्य बहुत से आकर्षक ऐप्स होते हैं, जो विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं। इससे उनके अध्ययनसमय में कमी आ सकती है। प्रायः देखने में आता है कि मोबाइल के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ पाते। वजह है एक साथ कई-कई विंडो खोल कर कईझकई चीजों को देखने की लत। यदि स्मार्टफोन का प्रयोग कम उम्र के अपरिपक्व बच्चों को करने की खुली छूट मिल जाए तो फिर उनकी एकाग्रचितता भंग ही होगी। देखने में आया है कि स्मार्टफोन जल्दी ही लत का रूप ले लेता है, और बच्चे लंबे समय तक उसी में लगे रहते हैं। लंबे समय तक स्मार्टफोन का उपयोग करने से आंखों की समस्याएं, सिर दर्द और मानसिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। स्मार्टफोन का गलत उपयोग भी होता है जैसे नकल, पढ़ या समझ कर प्रश्न हल करने की बजाय उपलब्ध सामग्री को कॉपी-पेस्ट करके गृह कार्य या प्रोजेक्ट बनाया, चैट जीपीटी या ऐसे ही दूसरे ऐप्स अथवा साइट्स से अध्ययन की सामग्री मिला सोचे-समझे ले लेना विद्यार्थियों को गलत आदतें सिखा सकता है। साइबर बुलिंग, पॉर्न साइट्स या अश्लील सामग्री देखना या पढ़ना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। बेशक, स्मार्टफोन स्टेटस सिंबल बन गया है। चाहे मां-बाप की सामर्थ्य है या नहीं, मगर उन्हें बच्चों को महंगा फोन खरीद कर देना ही पड़ता है। ऐसे में स्मार्टफोन खरीदने और उसे मेंटन करने के लिए वित्तीय बोझ बढ़ता है। इंटरनेट पर अनेक नशीली और



अपचितजनक सामग्री रहती हैं। ऐसे में विद्यालयों में स्मार्टफोन पहुंच जाणा तो बच्चों को इस प्रकार की सामग्री से बचना मुश्किल हो सकता है। दोनों पक्षों को ध्यान में रख कर ही न्यायालय ने स्मार्टफोन के उपयोग को तो रोकने से मना कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इन खतरों से बचने के लिए कई अनुबंध एवं शर्त भी इस निर्णय के साथ जोड़ दी हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि छात्रों को स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन उपयोग की निगामी हो। इस निर्णय के आलोक में कहा जा सकता है कि विद्यार्थी भले ही स्मार्टफोन स्कूल प्रांगण में ले जाएं लेकिन उसके उपयोग को बहुत सीमित कर दिया जाए। (लेखक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं)

थोड़ी सी सावधानी से डायबिटीज के मरीज भी ले सकते हैं होली का मजा



होली खाने-पीने और लोगों से मिलने-जुलने का मौका होता है. होली के दिन दोस्त-रिश्तेदार मिलते हैं, पार्टियों का दौर चलता है. लेकिन इन पार्टियों और बेवकत खाने-पीने का बुरा असर उन लोगों के शरीर पर ज्यादा पड़ता है जो पहले से ही किसी शारीरिक समस्या से जुड़ा रहे हैं. त्योहारों के दौरान खान-पान में लापरवाही बरतने से डायबिटीज के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है. आज इस त्योहारी सीजन पर हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप पूरे जोश के साथ होली का मजा ले पाएंगे, वो भी बीमारी की चिंता किए बिना.

होली के दौरान ब्लड शुगर लेवल को कैसे रखें कंट्रोल

विशेषज्ञों का कहना है कि होली के बाद बड़ी संख्या में लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो त्योहारी सीजन के दौरान 250 इंच/संरुसे ऊपर ब्लड शुगर लेवल वाले लोगों के ब्लड शुगर लेवल में 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि 300 इंच/संरुसे ऊपर ब्लड शुगर लेवल वाले लोगों में 18 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. इस होली पर डायबिटीज के मरीज अपने खान-पान पर थोड़ा कंट्रोल रखकर अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं और त्योहार को भी उसी उत्साह और खुशी के साथ मना सकते हैं.

थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई बार खाएं

अगर डायबिटीज के मरीज एक बार में बहुत सारा खाना खाने की बजाय थोड़े-थोड़े अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा खाएं, तो वे अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं. ऐसा करने से मरीजों के खून में शुगर लेवल सामान्य रहेगा और शरीर को पूरे पोषक तत्व भी मिलेंगे.

फास्ट फूड की जगह पौष्टिक स्नेक्स खाएं

त्योहार की चहल-पहल और उत्साह में खाने-पीने से समझौता न करें. जितना हो सके फास्ट फूड से बचें और तले-भुने और मसालेदार खाने से दूरी बनाए रखें. साथ ही बिरिचट, समोसे, कचौड़ी और पकोड़े जैसी खाद्य सामग्री खाने से बचें. फास्ट फूड की जगह फल और हल्के भुने स्नेक्स खाएं.

शराब और अन्य नशीले पदार्थों को सेवन से बचें

होली के त्योहार के मौके पर ज्यादातर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर खुशी जाहिर करने के लिए शराब का सेवन करते हैं. शराब आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है. इसलिए जहां तक ??हो सके शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें और अपने रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का प्रयास करें.

कोल्ड ड्रिंक्स से बचें

त्योहारों के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से भी बचना चाहिए. कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी या ग्रीन टी को प्राथमिकता देनी चाहिए.

ब्राउन राइस खाएं

ज्यादातर लोग सफेद चावल खाना पसंद करते हैं. लेकिन डायबिटीज के रोगियों को सफेद चावल खाने से बचना चाहिए. दरअसल, सफेद चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाता है. इसलिए सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए.



भुने हुए अमरूद के लाभ जानकर हो जाएंगे हैरान

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. अच्छी सेहत के लिए लोगों को आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, इसके साथ ही तरह-तरह के फल का भी सेवन करना चाहिए. अमरूद फल खाना हर किसी को पसंद होता है. स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अमरूद काफी फायदेमंद होता है. अमरूद स्वास्थ्य को ठीक रखता है, इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है. अमरूद में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई होते हैं. अमरूद को अधिकांश लोग ऐसे ही खाते हैं लेकिन यदि इसे रोस्ट कर खाया जाए तो और भी फायदेमंद होगा. इस खबर में प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ डॉ. जानकी श्रीनाथ से के

माध्यम से जाने भुने हुए अमरूद खाने के फायदे के बारे में...

भुने हुए अमरूद खाने के फायदे

भुना हुआ अमरूद खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है. यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है. अमरूद पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कॉपर और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं.

भुने हुए अमरूद में फाइबर होता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसे खाने से पेट की समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और अपच से राहत मिलती है. अमरूद में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है. इसे

भुनकर खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. इससे शरीर में संक्रमण का खतरा टल जाता है.

भुने हुए अमरूद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण है. भुने हुए अमरूद में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं. ये दिल को स्वस्थ रखते हैं. इसे खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है.

भुने हुए अमरूद खाने से कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. भुने हुए अमरूद में कैल्शियम और फास्फोरस होता है. ये हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है.

भुने हुए अमरूद सर्दी-खांसी से राहत दिलाते हैं. अमरूद की तासीर आमतौर पर ठंडी होती है. ऐसे में भुने हुए अमरूद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. अमरूद में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं. सर्दियों में भुने हुए अमरूद खाने से सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं दूर रहती हैं.

अमरूद में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. ये दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. दिल के मरीजों के लिए अमरूद खाना फायदेमंद होता है. एनर्जी से भरपूर अमरूद खाने से आपको एनर्जी मिलती है. इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं. आप भुने हुए अमरूद की चाट बनाकर भी नाश्ते में खा सकते हैं.

भुने हुए अमरूद खाने से शरीर से कमजोरी और थकान दूर होती है. अगर आपको भूख कम लगती है तो भुने हुए अमरूद खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है. भुने हुए अमरूद खाने से भूख बढ़ती है. वजन घटाने में अमरूद खाना फायदेमंद होता है. इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और वजन कम करने में मदद करता है.

अमरूद में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान से बचा सकते हैं, जो इसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, जिससे झुर्रियों को रोकने में मदद मिलती है.



दो महीने तक खाली पेट नारियल पानी पीने से क्या होगा?

नारियल पानी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इस पानी में मौजूद कुछ तत्व स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देते हैं और पुरानी बीमारियों से बचाते हैं. हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोज सुबह 2 महीने तक खाली पेट नारियल पानी पीते हैं तो क्या होता है? खबर में जानें नियमित रूप से नारियल पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं.

शरीर में आते हैं ये बदलाव

दरअसल, रोजाना नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. इस पानी में मौजूद कुछ तत्व स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देते हैं और पुरानी बीमारियों से बचाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रोज सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है. यह शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है.

रोज सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ती है. संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है. जो लोग हमेशा मौसमी बीमारियों से परेशान रहते हैं उन्हें नियमित रूप से नारियल पानी पीने से फायदा होता है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि रोज सुबह नारियल पानी पीने से दिल से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है. इसके कुछ गुण शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं. यह दिल को मजबूत बनाने में भी मदद करता है.



नारियल के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इनसे शरीर तराताजा रहता है. संक्रमण से पीड़ित लोगों के लिए यह पानी पीना अच्छा रहता है. साथ ही बीपी, शुगर और दिल की बीमारियां भी कंट्रोल में रहती हैं. आपको बता दें, बढ़ते वजन को कम करने के लिए आपको रोजाना नारियल पानी पीना चाहिए. दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको रोजाना नारियल पानी पीना चाहिए. त्वचा को चमकदार और ग्लोइंग बनाने के लिए भी नारियल पानी उपयोगी है. अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको नारियल पानी पीना चाहिए.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) के अनुसार, नारियल पानी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं

नारियल पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो किडनी के कार्य, मांसपेशियों के संकुचन और रक्त शर्करा के नियमन में मदद करता है.

नारियल का पानी ग्लूकोज सहनशीलता को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. नारियल का पानी रेटिना की मोटाई को बेहतर बनाने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है.

नारियल के पानी का सिरका कैसर से जुड़ी सूजन को रोकने और स्तन केसर कोशिकाओं की प्रगति में देरी करने में मदद कर सकता है.

नारियल के पानी में रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स होते हैं जो रोगजनक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

नारियल के पानी में कैटेचिन होते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स- नारियल पानी पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का एक उत्कृष्ट स्रोत है. ये खनिज शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जो जलयोजन के लिए आवश्यक है.

हाइड्रेशन- नारियल पानी हाइड्रेशन का एक प्राकृतिक स्रोत है, और यह पसीने के कारण खोए हुए तरल पदार्थ को भरने में मदद कर सकता है. यह शुगर युक्त या हाई कैलोरी वाले पेय का एक उत्कृष्ट विकल्प है, जो निर्जलीकरण में योगदान कर सकता है.

ठंडक प्रदान करने वाले गुण- नारियल पानी में प्राकृतिक शीतलन गुण होते हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और गर्मी के तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

भोजन करते समय ऊपर से भूलकर भी ना करें नमक का सेवन

देश-दुनिया में लोग जाने-अनजाने में जरूरत से ज्यादा नमक सेवन करते हैं. कई लोग खाने के समय काफी मात्रा में अतिरिक्त नमक का सेवन करते हैं. मतलब निर्धारित मात्रा से अत्यधिक नमक सेवन करते हैं. इस कारण धीरे-धीरे हाई बीपी के अलावा कई गंभीर मेडिकल समस्या से ग्रसित हो जाते हैं. डिमेंशिया भी एक ऐसी ही समस्या है. डिमेंशिया से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचता है. डिमेंशिया से पीड़ित लोगों में सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है. जापान में यह समस्या काफी आम है. कभी-कभी, डिमेंशिया से पीड़ित लोग पागल भी हो सकते हैं.

विकिन्सा विज्ञान में डिमेंशिया को बीमारी नहीं माना जाता है. वर्तमान में, मस्तिष्क पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई संतोषजनक उपचार उपलब्ध नहीं है. या फिर डिमेंशिया को ठीक करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है. दुनिया की बढ़ती आबादी के साथ,

डिमेंशिया की रोकथाम और उपचार दवाओं की खोज महत्वपूर्ण है. विकिन्सा विशेषज्ञों का मानना ??है कि डिमेंशिया की समस्या के पीछे मुख्य कारण अत्यधिक मात्रा में टेबल नमक का सेवन है, जो एक सर्वव्यापी खाद्य योजक है. अधिक नमक (एचएस) का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकता है. प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों को रोकने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति दिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन सीमित करने की सलाह देता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वयस्कों को प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए. इसका मतलब है कि हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने और स्वस्थ रक्तचाप बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 2,000 मिलीग्राम से कम सोडियम का सेवन करना चाहिए.

अगर भारतीय प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खाने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक का पालन करें, तो वे 10 वर्षों में हृदय रोग (सीवीडी) और क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) से होने वाली

अनुमानित 300,000 मौतों को टाल सकते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए एक मॉडलिंग अध्ययन का निष्कर्ष है. द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में अनुपालन के पहले 10 वर्षों के भीतर पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ और लागत बचत की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें 1.7 मिलियन सी.वी.डी. घटनाओं (दिल के दौर और स्ट्रोक) और 700,000 नए सी.के.डी. मामलों को रोकना शामिल है, साथ ही 800 मिलियन डॉलर की बचत भी शामिल है. वर्तमान में औसत भारतीय प्रतिदिन लगभग 11 ग्राम नमक का सेवन करता है, जो डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा अनुशंसित मात्रा (5 ग्राम/दिन नमक से कम) से दोगुना है.

शोध में क्या हुआ एंजियोटेंसिन ड्रग्स (एंग II) - एक हार्मोन जो ब्लड प्रेशर और द्रव संतुलन को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके रिसेप्टर %एटी1%, साथ ही शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण लिपिड अणु प्रोस्टाग्लैंडीन ई2 और इसके रिसेप्टर



%ईपी1% की हाई ब्लड प्रेशर और न्यूरोटॉक्सिसिटी में भागीदारी अच्छी तरह से पहचानी जाती है. हालांकि, हाई सॉल्ट मध्यस्थता वाले हाई ब्लड प्रेशर और भावनात्मक/संज्ञानात्मक हानि में इन प्रणालियों की भागीदारी अभी भी मायावी बनी हुई है.

इसके लिए, ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने एचएस-मेडीटर और भावनात्मक/संज्ञानात्मक हानि के पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया है. अध्ययन जापान के सहयोगी शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा

किया गया था. क्रॉसस्टॉक द्वारा मध्यस्थता से भावनात्मक और संज्ञानात्मक शिथिलता का कारण बनता है.

फुजिता हेल्थ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के लेखक हसायोशी कुबोता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अत्यधिक नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर, संज्ञानात्मक शिथिलता और मासिक स्वास्थ्य के लिए एक रिस्क फेक्टर माना जाता है. हालांकि, परिधीय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययनों ने पर्याप्त जांच नहीं की है.

पूर्व सीएम केजरीवाल की जेड सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जेड कैटेगरी सुरक्षा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर खतरों के आकलन के बाद आगे भी समीक्षा की जाएगी। इंटरलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा स्थिति की निगरानी की जाएगी, और आवश्यकतानुसार मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वह कानूनी रूप से अन्य राज्यों की सुरक्षा नहीं ले सकते। यदि कोई अन्य राज्य का वीवीआईपी दिल्ली आता है और उसे सुरक्षा दी जाती है, तो वह अधिकतम 72 घंटे तक ही वैध होगी। इसके लिए भी दिल्ली पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, अन्यथा यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। गृह मंत्रालय के इस फैसले से साफ है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

जम्मू में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार

जम्मू (एजेंसी)। रामबन पुलिस ने पब्लिक सेपटी एक्ट के तहत आतंकवादियों के ओपर ग्राउंड वर्कर मंजूर अहमद को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि मंजूर अहमद गूल व इसके आसपास के क्षेत्रों में राउट और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। मंजूर अहमद लंबे समय से फरार था और गिरफ्तारी से बच रहा था। ऐसे में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम ने कामयाबी हासिल करते हुए मंजूर अहमद को गिरफ्तार कर लिया।

नालंदा में युवती की निर्मम हत्या देख सन्न रह गये लोग मानवता हुई शर्मसार

बिहार शरीफ (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार को सुशासन का राज बताते हैं। लेकिन जिस तरह से युवति की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। उसको देखने के बाद लोग सन्न रह गए हैं। मानवता शर्मसार हो गई है। ऐसे निर्मम तरीके से किसी की हत्या कोई मानव कर सकता है। बुधवार की सुबह नालंदा के बिहार शरीफ स्थित बहादुरपुर गांव में एक युवति का शव मिला है। युवति के पूरे शरीर में मारने पीटने के निशान और घाव बने हुए हैं। लड़की की सुबह नालंदा पर 9 कीलें ठोकी गई हैं। युवती की उम्र 24 वर्ष की बताई जा रही है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जहां शव मिला है, वहां पर खून के कोई निशान देखने को नहीं मिले हैं। जिसके कारण यह माना जा रहा है। गिरफ्तार और प्रताड़ना के बाद युवति का शव लाकर यहां फेंक दिया गया है। प्रारंभिक अवस्था में लाश को देखने के बाद लग रहा है, युवती गर्भवती है।

संगमल हिंसा के आरोपी का फोटो वाला पोस्टर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर लगाया

संभल (एजेंसी)। जामा मस्जिद में सर्व के दौरान हुए बवाल के बाद उत्तरप्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपितों की तलाश जारी है। इस दौरान सीसीटीवी फूटेज में एक आरोपित का फोटो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपित की पहचान करने को आरोपी का फोटो वाला पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर चسपा कर दिया है। सीसीटीवी फूटेज के आधार पुलिस ने अब तक करीब 76 आरोपितों की पहचान कर जेल भेज दिया है। बवाल के बाद एकत्र की गई सीसीटीवी की इन्होंने फूटेज में पुलिस को एक फूटेज ऐसी मिली है, जिसमें एक युवक भोड़ में शामिल लोगों को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा है। पुलिस उस आरोपित की पहचान करने में लगी रही, लेकिन काफी मशकत के बाद भी आरोपित की शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज में दिखाई दे रहे आरोपित युवक के फोटो वाले पोस्टर छपाकार नगर में सार्वजनिक स्थानों पर चसपा करवाए हैं, जिससे उनकी पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। पुलिस की ओर से चिपकवाए गए पोस्टर में सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखने व इनाम देने की घोषणा भी की है।

रील बनाने के चक्कर में नहर में गिरी कार, सवार तीन युवकों को तलाश रही पुलिस

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के अहमदाबाद के फतेहवाड़ी नहर में एक स्कॉर्पियो कार जा गिरी। गुरवार को कार जब नहर में गिरी तब उसके अंदर तीन युवक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि, रील बनाने के चक्कर में स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। स्कॉर्पियो जैसे ही कैनाल में गिरी उसके तुरंत बाद वहां मौजूद दूसरे दोस्तों ने रस्सी डालकर तीनों युवकों को बचाने की कोशिश की व लेकिन असफल रहे। जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर इकठ्ठा हुए। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी को बाहर निकालकर गाड़ी में मौजूद तीनों युवकों की तलाश शुरू की गई है। पुलिस जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो कार 4 घंटे के लिए 3500 रुपए चुकाकर रील बनाने के लिए हृदय, ध्रुव और ऋतानुप ने किराए पर ली हुई थी। स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जब तीनों वासना बैरेज पहुंचे तब वह पहले से ही उनके 4 दोस्त विराज सिंह, यश, यश और क्रिश्न वहीं मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक, यश ने स्कॉर्पियो गाड़ी चलाकर थोड़ी दूर जाने के बाद अपने दोस्त यश सोलंकी को चलाने के लिए दी थी। इस दौरान गाड़ी में क्रिश्न भी साथ में मौजूद था। स्कॉर्पियो रील बनाने के लिए ली गई थी, तब रील बनाने का काम भी जारी था। लेकिन गाड़ी अचानक बेकाबू होकर नहर में जा गिरती है। इसके बाद वहीं मौजूद तीनों युवकों के दोस्त विराजसिंह राठौड़ ने रस्सी की मदद से अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की लेकिन तीनों में से एक भी दोस्त रस्सी पकड़ नहीं पाए और पानी के तेज बहाव में बह गए।

प्रधानमंत्री मोदी व राहुल गांधी के गुजरात दौरे से गर्मायेगी सियासत

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार फिर गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और राहुल का यह दो दिवसीय दौरा गुजरात की राजनीति को गरमाने के लिए काफी होगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 मार्च को राज्य के सूरत और नवसारी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने गुजरात पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एक तरह से पार्टी के लिए चुनावी प्लेटफार्म तैयार करने पीएम मोदी एक बार फिर गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहीं



गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए हो रहा है। वे पार्टी संगठन को पुनर्गठित करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर देने वाले हैं। इसके अलावा, वे कांग्रेस के प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। जानकारी अनुसार कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी का यह दौरा पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है इससे रणनीति में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को सूरत के लिंबायत इलाके के नीलगिरी ग्राउंड में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले, 1 मार्च को पीएम मोदी तीन दिवसीय निजी दौरे पर गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने सौराष्ट्र के विभिन्न जिलों का दौरा किया था। उन्हेने जामनगर, गिर और जूनागढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और सोमनाथ मंदिर के दर्शन होने वाले विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल

होंगे। नवसारी में भी वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले, 1 मार्च को पीएम मोदी तीन दिवसीय निजी दौरे पर गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने सौराष्ट्र के विभिन्न जिलों का दौरा किया था। उन्होंने जामनगर, गिर और जूनागढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए थे।

चुनावी रणनीति पर चर्चा करने पहुंच रहे राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद में पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का यह दौरा आगामी 2027 के

अभी से तैयारी में जुटे कांग्रेस वरना बिहार में होगा महाराष्ट्र और हरियाणा जैसा हाल

-कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने किया आगाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनावों में हमें हार मिली है। इससे सबक लेकर बिहार चुनाव के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। यदि गठबंधन में गांठ है, तब उस गांठ को समय रहते खत्म करना होगा। कांग्रेस के ही नेता तारिक अनवर ने अपनी पार्टी को यह हिदायत दी है। कांग्रेस नेता अनवर ने कहा कि बिहार चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में है और बिना कोई समय गंवाए कांग्रेस को तैयारी में जुटना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को आगाह करते हुए कहा कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य अनवर ने कहा कि दूसरे राज्यों की हार से सबक लेकर आरजेडी के साथ गठबंधन की ह्र गांठ को खत्म कर लेना चाहिए। हमें समय रहते ही समन्वय बैठकें शुरू करनी चाहिए।

भाजपा के बीच पहले ही चीजें तय होने लगी हैं। वे चुनाव कैम्पेन मोड में भी चले गए हैं। कांग्रेस नेता अनवर ने कहा, 'हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस की हार के बाद अब बिहार का चुनाव अहम हो गया है। इसका असर बिहार में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में होता है। यह कांग्रेस और हमारे सहयोगी दलों की जरूरत है कि बिहार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अलर्ट कर कहा कि लीडरशिप को हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के नतीजे देखने चाहिए। इन नतीजों से सबक लेकर बिहार की तैयारी की जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी और बिहार इकाई के बीच दूरत ही समन्वय बनाकर काम शुरू किया जाए।

सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी स्टालिन की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट से राहत

-उसकी अनुमति के बिना कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी


नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री एम उदयनिधि स्टालिन को फौरी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उदयनिधि के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि एक ही मुद्दे पर कई शिकायतें दर्ज नहीं हो सकतीं। साथ ही न्यायालय ने मौजूदा प्रार्थमिकियों को सुनवाई कर रही अदालतों में व्यक्तिगत रूप से उम्रीस्थत होने

से स्टालिन को दी गई छूट संबंधी अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ दी। दरअसल एक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था कि जिस तरह से कोरोना, मलेरिया, डेंगू को खत्म करते हैं, उसी तरह सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने सभी प्रार्थमिकियों को एक साथ जोड़ने और शिकायतों को एक स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। पीठ ने लंबित मामले में दायर उनकी याचिका पर उन उरणों को नोटिस जारी किए जहां नई प्रार्थमिकियां दर्ज की गई थीं।

स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अधिपेक सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र के अलावा पटना, जम्मू और बंगलूरु में भी प्रार्थमिकियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने तर्क देकर कहा कि सभी मामलों को तमिलनाडु में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां कथित घटना हुई थी। सिंघवी ने कहा कि स्टालिन के खिलाफ बिहार में एक नया मामला दर्ज हुआ है और लंबित याचिका में वहां के शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने के लिए संधी प्रार्थमिकियों को एक साथ जोड़ने और सिंघवी ने कहा, नुपूर शर्मा के मामले में शब्दों को बहुत अधिक आक्रामक माना जाता है। न्यायालय ने अन्य सभी मामलों को उस स्थान पर स्थानांतरित किया था जहां पहली बार प्रार्थमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में यहीं समाधान है। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म को मलेरिया, कोरोना, डेंगू आदि की तरह खत्म किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहे... केवल एक ही स्ववाल है कि क्या इन्हें एक ही स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मेहता ने कहा कि केवल इसलिए कि हिंदुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नेता को ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

माता-पिता दोनों की अनुमति के बिना नहीं बनेगा नाबालिग का पासपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। माता-पिता दोनों की अनुमति के बिना अब नाबालिग का पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर किसी फुल अभिभावक ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन दिया है, तब उन्हें पहले से ज्यादा सूचनाएं और उनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज देना होंगा। उन्हें दूसरे अभिभावक की ओर से सहमति न मिलने का कारण भी स्पष्ट करना होगा।



प्रतिबंध तो नहीं लगा रखा है।

- माता या पिता में से कोई एक विदेश में रह रहा है और अनुमति देने में असमर्थ है, तब उनके पासपोर्ट और वीजा की कॉपी भी जमा करानी होगी।

दरअसल विदेश मंत्रालय ने बीते दिनों नाबालिग के आवेदन के साथ लगने वाले अनुलग्नक-सी (माता-पिता की ओर से घोषणा-पत्र) में परिवर्तन किया है। अनुलग्नक-सी में सही जानकारी नहीं देने पर पासपोर्ट के आवेदन पर विचार नहीं होगा। नाबालिग के पासपोर्ट के आवेदन के साथ दोनों अभिभावकों की सहमति दी गई है, तब उन्हें अनुलग्नक-डी और एक अभिभावक की सहमति होने पर अनुलग्नक-सी भ्रंशक देना होता है। इसमें अक्सर आवेदकों की ओर से सही जानकारी नहीं दी जाती थी। इसतह के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें अभिभावकों

के बीच विवाद होने पर पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। आवेदन करने वाले अभिभावक की ओर से दूसरे की सहमति न मिलने का कारण उसका विदेश में रहना बताया गया। पूर्व में इसतह के मामलों में विदेश में रहने के सुबूत दिया जाना अनिवार्य नहीं था। वहीं, कोर्ट में तलाक का केस चलने पर सिंगल अभिभावक की ओर से आवेदन करने पर उनके लिए यह जानकारी देना अनिवार्य नहीं था कि न्यायालय की ओर से उन्हें बच्चे की कस्टडी दी गई है या नहीं। पासपोर्ट बनवाने के दौरान इसतह के दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता भी नहीं थी जिसमें कोर्ट के पासपोर्ट जारी करने पर कोई शर्त या

अभिभावक को आवेदन के साथ कोर्ट से बच्चे की कस्टडी और देखरेख के अधिकार का दस्तावेज देना होगा।

- तलाक होने की स्थिति में सिंगल अभिभावक की ओर से आवेदन करने पर उनके लिए यह जानकारी देना अनिवार्य नहीं था कि न्यायालय की ओर से उन्हें बच्चे की कस्टडी दी गई है या नहीं।
- तलाक होने या मामला विचाराधीन होने पर अगर कोर्ट ने पासपोर्ट के संबंध में कोई निषेधाज्ञा लागू नहीं की है, तब तलाक याचिका की कॉपी देनी होगी।
- तलाक हो जाने पर या मामला विचाराधीन होने पर अगर कोर्ट ने पासपोर्ट के संबंध में निषेधाज्ञा लागू की है, तब दोनों अभिभावकों की सहमति या न्यायालय की अनुमति जरूरी होगी।

हिंदू मतदाताओं का विश्वास जीत केरल में यूडीएफ व एलडीएफ का खेल बिगाड़ेगी भाजपा

-लगातार बढ़ रहा भाजपा का वोट प्रतिशत

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल विधानसभा चुनाव में अभी एक साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ ने चुनावी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इस बीच लोगों में पैठ बना रही भाजपा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व वाम दलों की चुनौतियां बढ़ सकती है।

केरल में बीते 10 वर्षों से वाम दल सत्ता में है। हालांकि वर्ष 2019 और 2024 के आम चुनाव में यूडीएफ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यह कहना मुश्किल है, कि लोकसभा का अक्षर विधानसभा में दिखाई देगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने केरल में सरकार

बनाई थी। चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि पहले मतदाताओं के सामने यूडीएफ और एलडीएफ दो ही विकल्प होते थे। अब धीरे-धीरे दोनों गठबंधनों के वोट बैंक में संघ लगाकर भाजपा अपनी जगह बना रही है। नजर और मह्दुआरा समुदायों पर भाजपा की पहले से नजद है। दोनों समुदाय अमूमन चुनाव में एलडीएफ का समर्थन करते रहे हैं।

केरल में अब तक राजनीति दो ध्रुवों रही है, लेकिन भाजपा के प्रवेश के बाद सियासत बदल गई है। अगर भाजपा सभी सीट पर चुनाव लड़ती है, तब मुकाबला त्रिकोणीय होगा है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अभी अपना प्रदर्शन बरकरार रखती है, तब यह यूडीएफ और एलडीएफ दोनों का गणित बिगाड़ सकती है। क्योंकि, भाजपा का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है।

लोकसभा में एनडीए को 19 फीसदी वोट मिले। जबकि 2021 विधानसभा में यह 12 प्रतिशत था। केरल में कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि एलडीएफ सरकार के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी है। पर क्या यूडीएफ मतदाताओं की नाराजगी को अपने पक्ष में बदल पाएगी। वहीं, एलडीएफ के लिए भी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं है। इसकी बड़ी वजह लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट से भाजपा को जीत है। भाजपा ने केरल में सिर्फ त्रिशूर सीट से जीत दर्ज नहीं की है, करीब एक दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिले हैं। भाजपा के प्रदर्शन से साफ है कि वह हिंदू मतदाताओं को भरोसा जीतने में सफल रही है। वहीं, ईमाई मतदाताओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अब दूर नहीं है।

केरल में निपाह वायरस को लेकर बढ़ी चिंता, सरकार ने शुरु की तैयारी



तिरुवनन्तपुरम (एजेंसी)। केरल में निपाह वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड, मलपुरम, कन्नूर, वायनाड और एरणाकुलम जिलों को जूनोटिक संक्रमण के हांटस्पॉट मानकर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। चम्पादुडों के प्रजनन के मौसम से पहले इन जिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है ताकि निपाह वायरस के बढ़ते खतरों को रोक सके।

मिली जानकारी के मुताबिक, केरल सरकार ने रोग-ट्रैकिंग स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर कई बचाव उपाय किए हैं। इसमें सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं, इसके द्वारा लोगों को निपाह वायरस से जुड़ी जोखिमों की जानकारी दी जा रही है और इससे बचाव के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है।

दरअसल निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से

इंसानों में फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से चम्पादुड़ों और सुअरों के जिर्राएं में फैलता है। लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह इंसान से इंसान में भी तेजी से फैल सकता है।

यह वायरस पहली बार 1998 में मलेशिया में पाया गया था, जब यह सुअरों से इंसानों में फैला था। भारत में भी 2001 और 2018 में इसके मामले सामने आए थे।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, निपाह वायरस का मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि कोविड-19 की मृत्यु दर औसतन 2 से 3 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि यह वायरस कम समय में ज्यादा लोगों की जान ले सकता है।

फिलहाल, इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन या पुख्ता इलाज उपलब्ध नहीं है, जिससे इसका खतरा और बढ़ जाता है।



भारत-न्यूजीलैंड गोल्डन बैट के लिए रचिन रविंद्र और विराट कोहली में होगी टक्कर



नईदिल्ली (एजेसी)। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तहत भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस दौरान सबकी नजरें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज पर होगी जिसे गोल्डन बैट मिलेगा। इस अवॉर्ड के लिए रचिन रवींद्र और विराट कोहली के बीच टक्कर है। इसी तरह गोल्डन बॉल के लिए मैट हेनरी और मोहम्मद शमी आमने-सामने हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप स्कोरर

227 रन - बेन डेकेट, इंग्लैंड
226 रन - रचिन रवींद्र, न्यूजीलैंड
225 रन - जो रूट, इंग्लैंड
217 रन - विराट कोहली, भारत
216 रन - इब्रहिम जदारान, अफगानिस्तान
इस लिस्ट में 195 रन बनाकर श्रेयस अय्यर छठे स्थान पर बने हुए हैं। अगर वह रफु स्ट्रेज की तरह फाइनल में भी अच्छी पारी खेलने में सफल रहे तो वह भी गोल्डन

बैट के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन सबकी नजरें विराट कोहली पर होंगी।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप विकेटेकर

10 विकेट - मैट हेनरी, न्यूजीलैंड
8 विकेट - मोहम्मद शमी, भारत
7 विकेट - वरुण चक्रवर्ती, भारत
7 विकेट - मिचेल सेंटनर, न्यूजीलैंड
7 विकेट - बेन डारसुडिस, ऑस्ट्रेलिया

बेस्ट स्ट्राइकर रेट में फिलिप्स आगे

टूर्नामेंट में ग्लेन फिलिप्स ने फील्डिंग के अलावा बल्ले से भी अपना जलवा दिखाया है। उन्होंने 4 मैचों में 143 रन बनाए हैं लेकिन उनकी स्ट्राइकर रेट (140.20) इस वक सबसे ज्यादा है। उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर (139.08) का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया के जोश इर्रिलस

(133.67) भी इस लिस्ट में हैं।

सबसे ज्यादा छक्के

फिलहाल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में उमरजजई पहले नंबर पर चल रहे हैं जिन्होंने 3 मैचों में 8 छक्के लगाए हैं। ग्लेन फिलिप्स 7 छक्के लगाकर संयुक्त तौर पर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 5 छक्के लगाए हैं। केएल राहुल 4 तो श्रेयस अय्यर ने 3 ही छक्के लगाए हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 गोल्डन बैट

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (वनडे)
कुल खेले गए मैच- 120
भारत जीता- 62
न्यूजीलैंड जीत- 50
टाई - 1
कोई परिणाम नहीं- 7

सबसे बड़ी जीत (रनों द्वारा)

भारत - 190 रन (10 अगस्त, 2022, हरारे - भारत 372/5, न्यूजीलैंड 182)
न्यूजीलैंड - 200 रन (26 मार्च, 1987, नागपुर - न्यूजीलैंड 299/8, भारत 99)

सबसे बड़ी जीत (विकेट द्वारा)

भारत- 10 विकेट (काई बार, उदाहरण के लिए, 21 जनवरी, 2019, नेपियर)
न्यूजीलैंड- 8 विकेट (काई बार, उदाहरण के लिए, 8 फरवरी, 2020, ऑकलैंड)

सचिन तेंदुलकर के इस शॉट से 15 साल पीछे पहुंच गए वॉटसन, मैच के बाद खुलकर बात की

7 चौके और 4 शानदार छक्के की बदौलत तेंदुलकर ने बनाए 64 रन

वडोदरा (एजेसी)। खचाखच भरे बीसीए स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जब इस महान बल्लेबाज ने इंडिया मास्टर्स और ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के बीच खेले गए हाई स्कोरिंग इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (आईएमएल) 2025 के मैच में शानदार प्रदर्शन किया। तेंदुलकर ने महज 33 गेंदों पर 64 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी पारी का सबसे खास पल तेज गेंदबाज बेन हिल्फेनहॉफ्स की गेंद पर लगाया गया शानदार स्ट्रेट छक्का था, जिसमें उन्होंने बेखौफ होकर ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण का सामना किया। इस शॉट ने न सिर्फ प्रशंसकों को रोमांचित नहीं किया, बल्कि विपक्षी कप्तान शेन वॉटसन को भी पुरानी यादें ताजा कर दीं, क्योंकि वॉटसन ने उन्हें इस 'रात का शॉट' करार दिया। तेंदुलकर के पुराने शॉट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा कि भारत के महान बल्लेबाज का स्ट्रेट ड्राइव देखना एक शानदार अनुभव था, और यह उन्हें 15 साल पीछे ले गया।



वॉटसन ने मैच के बाद कहा, हमने मैच जीत लिया, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन ने रात का शॉट खेला। वह स्ट्रेट ड्राइव मुझे तुरंत 15 साल पीछे ले गया। जिस तरह से उसने स्ट्रेट ड्राइव से छक्का मारा, मुझे लगता है कि सभी लड़के चुपचाप तालियां बजा रहे थे। दो बेहतरीन शॉट थे, स्ट्रेट ड्राइव से छक्का और फिर कवर ड्राइव से छक्का। आप देख सकते हैं कि सचिन इस शॉट से कितने खुश थे - उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया जैसे कह रहे हों कि मैं काफी समय से यह शॉट खेलना चाहता था। वहां खेलना एक शानदार अनुभव था।

वॉटसन ने मैच के बाद कहा, हमने मैच जीत लिया, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन ने रात का शॉट खेला। वह स्ट्रेट ड्राइव मुझे तुरंत 15 साल पीछे ले गया। जिस तरह से उसने स्ट्रेट ड्राइव से छक्का मारा, मुझे लगता है कि सभी लड़के चुपचाप तालियां बजा रहे थे। दो बेहतरीन शॉट थे, स्ट्रेट ड्राइव से छक्का और फिर कवर ड्राइव से छक्का। आप देख सकते हैं कि सचिन इस शॉट से कितने खुश थे - उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया जैसे कह रहे हों कि मैं काफी समय से यह शॉट खेलना चाहता था। वहां खेलना एक शानदार अनुभव था।

91 रन से हारी सचिन तेंदुलकर की इंडिया मास्टर्स- ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स ने आईएमएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में इंडिया मास्टर्स को 95 रन से हरा दिया। वडोदरा

पर 110*) ने स्कोर आगे बढ़ाया। डॉक ने पारी में 14 चौके और 7 छक्के लगाए जबकि वॉटसन ने 10 चौके और 6 छक्के लगाए। भारत की ओर से इरफान पटान (0/45), आरपी सिंह (0/60), और मुनाफ पटेल (0/55) महो साबित हुए।

इंडिया मास्टर्स पारी - 19.6 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट

270 रनों का पीछ करते हुए इंडिया मास्टर्स को तेजतरंग शुरुआत मिली थी। सचिन तेंदुलकर (33 गेंदों पर 64 रन, 8 चौके, 2 छक्के) और सनन ओझा (11 गेंदों पर 19 रन) ने 4 ओवर में ही स्कोर 48/0 रन बना दिया था। तेंदुलकर पुराने फॉर्म में दिख रहे थे, आसानी से ड्राइविंग और लॉफ्टिंग कर रहे थे। जेवियर डेवर्टी ने 10वें ओवर में तेंदुलकर (लॉग ऑन पर डेनियल क्रिस्चियन द्वारा कैच) को 100/4 के स्कोर पर आउट करके एक बड़ा झटका दिया, जिससे भारत की वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं। डेवर्टी ने 15वें ओवर में 4 गेंदों में 3 विकेट लेकर खेल का रुख निर्णायक रूप से बदल दिया। 141/5 से 141/8 पर आ गया, जिसके बाद वह 174 रन ही बना सका। और मैच गंवा दिया।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंडिया मास्टर्स - सचिन तेंदुलकर (कप्तान), नमन ओझा (विकेटकीपर), सीरभ तिवारी, सुरेश रैना, यूसुफ पटान, स्टुअर्ट बिनी, इरफान पटान, पवन नेगी, विनय कुमार, आरपी सिंह, मुनाफ पटेल।

ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स - शेन वॉटसन (कप्तान), शॉन मार्श, बेन डॉक, ब्रेड हॉज, ब्रेड हेडन (विकेटकीपर), डेनियल क्रिस्चियन, जेवियर डेवर्टी, ब्रेट ली, डर्क नैनेस, नाथन रियरडन, पीटर सिडल।

ग्रुप चरण में भारत से हार अतीत की बात फाइनल एक नया दिन होगा : डेरिल मिशेल



दुबई (एजेसी)। न्यूजीलैंड के मध्यक्रम बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने कहा कि ग्रुप चरण में भारत से हार अतीत की बात है और फाइनल एक नया दिन होगा। न्यूजीलैंड ने लाहौर के गढ़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान को 50 रन से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका मुकाबला रविवार 9 मार्च 2025 को भारत से होगा।

उन्होंने कहा, 'फाइनल एक नया मैच होगा और हम वास्तव में इस चुनौती का सामना करने और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने को लेकर उत्साहित हैं। उम्मीद है कि हम उन पर दबाव बनाने में सफल रहेंगे।' मिशेल इस

बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं कि भारत को एक ही स्थान पर खेलने का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, 'यही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की प्रकृति है। हमने काफी यात्रा की है और हम इसके आदी हो चुके हैं। टूर्नामेंट का कार्यक्रम तैयार करना मेरा काम नहीं है। मैं अभी आईसीसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने पर रोमांचित हूँ और अगला मैच खेलने के लिए उत्साहित हूँ।'

गौर हो कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में दक्षिण अफ्रीका की बुरी किस्मत अभी भी जारी है। टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंच पाई। लाहौर के गढ़ाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में उनकी टीम को 50 रनों से झेलनी पड़ी। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए रचिन रविंद्र (108) और केन विलियमसन (102) के शतक की बदौलत 362 रन बनाए थे। द. अफ्रीकी गेंदबाज लुंगी एनगिडी को 3 तो कगिसो रबाडा को 2 विकेट मिले।

फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर! न्यूजीलैंड का घातक गेंदबाज मैट हेनरी हुए चोटिल, बाहर

दुबई (एजेसी)। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 9 मार्च 2025 को होने वाले फाइनल से पहले भारत के लिए एक



अच्छी खबर आई है। दरअसल, 9 मार्च को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होना है। गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड

ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से मात दे दी। लेकिन इस बीच खबर आई कि, प्रमुख तेज गेंदबाज मैट

हेनरी को साउथ अफ्रीकी मैच के दौरान गंभीर चोट लग गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि, भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उनका खेलना मुश्किल होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने दिया अपडेट - वहीं मैच के बाद हेनरी की चोट को लेकर अपडेट देते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि हेनरी का कंधा कैसा रहता है। अभी उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी।

रुहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया का शानदार सफर - बता दें कि, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रुहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया का अब तक का सफर काफी शानदार रहा है। अब तक भारत ने अपने सभी मुकाबले जीते हैं। वहीं अब 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से भिड़ेगा।

वहीं अगर हेनरी फाइनल से बाहर होंगे, तो कहीं न कहीं ये यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी फेड स्टोल का निधन

मेलबर्न (एजेसी)। दो बार के ग्रैंड स्लैम एकल विजेता और ऑस्ट्रेलिया की तीन बार डेविस कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे फेड स्टोल का निधन हो गया है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। वह 86 वर्ष के थे। टेनिस ऑस्ट्रेलिया के सीईओ क्रैग टिली ने स्टोल को टेनिस में एक खिलाड़ी के रूप में और बाद में ऑस्ट्रेलिया के नाइन नेटवर्क तथा सीबीएस और फॉक्स

स्पॉर्ट्स के लिए एक कमेंटेटर के रूप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बताया। टिली ने निधन का कारण नहीं बताया।

टिली ने कहा, 'उनकी विरासत उत्कृष्टता, समर्पण और टेनिस के प्रति गहरा प्रेम है। ऑस्ट्रेलिया की डेविस कप टीम के स्टार सदस्य, फेड ने एक कोच और चतुर टिप्पणीकार के रूप में अपने शानदार करियर से खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्टोल ने 1965 में फ्रेंच ओपन और 1966 में अमेरिकी ओपन का एकल खिताब जीता था। इसके बाद वह विश्व रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गए थे। उन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में 10 पुरुष युगल और सात मिश्रित युगल भी जीते।

लेब्रोन जेम्स ने रचा इतिहास, 50,000 करियर पॉइंट बनाने वाले पहले एनबीए खिलाड़ी बने

लॉस एंजिल्स (एजेसी)। तीन बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लेब्रोन जेम्स 50,000 करियर पॉइंट बनाने वाले इतिहास के पहले एनबीए खिलाड़ी बन गए हैं। 40 वर्षीय लॉस एंजिल्स लेकर्स स्टार ने मंगलवार को न्यू ऑरलियन्स पेलिकन्स के खिलाफ घर पर



एनबीए रेग्युलर सीजन गेम के दौरान तीन-पॉइंट स्कोर करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। न्यू ऑरलियन्स पेलिकन्स के खिलाफ लेकर्स के मैचअप में जेम्स को सिर्फ एक पॉइंट की

की। अमेरिकी खिलाड़ी के संयुक्त स्कोर में अब 41,871 नियमित-सीजन अंक और 8,162 पोस्टसीजन अंक शामिल हैं। वह एनबीए के

जरूरत थी। उन्होंने पहले क्वार्टर में 8-34 मिनट शेष रहते लुका डोनसिक फ्रीड से लेफ्ट विंग से तीन-पॉइंट लगाया। उन्होंने 34 पॉइंट, 8 रिबाउंड और 6 असिस्ट किए, जिससे लेकर्स ने पेलिकन्स पर 136-115 से जीत हासिल की।

दिग्गज माइकल जॉर्डन एकमात्र अन्य 40 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 40 से अधिक अंक हासिल किए हैं। पिछले साल दिसंबर में जेम्स ने लॉस एंजिल्स लेकर्स की सैक्रामेंटो किंग्स पर जीत के दौरान लीग के इतिहास में सबसे अधिक मिनिट खेलते हुए छह बार के एनबीए एमवीपी करीम अब्दुल-जब्बार को पीछे छोड़ दिया।

बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर मुशाफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास

दुबई (एजेसी)। बांग्लादेश के अनुभवी खिलाड़ी मुशाफिकुर रहीम ने बुधवार को अपने वनडे इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया। मुशाफिकुर ने सोशल मीडिया पर अपनी घोषणा करते हुए कहा कि पिछले कुछ सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहे, जब बांग्लादेश आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बिना जीत के बाहर हो गया, यह बात आईसीसी मीडिया रिलीज के अनुसार कही गई है।

मुशाफिकुर ने अपने बयान में कहा, मैं आज से वनडे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर रहा हूँ। वैश्विक स्तर पर हमारी उपलब्धियां सीमित रही होंगी, लेकिन एक बात तो तय है- जब भी मैं अपने देश के लिए मैदान पर उतरा, मैंने समर्पण और ईमानदारी के साथ 100% से अधिक दिया।



मुशाफिकुर ने 2005 में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और उसके अगले

साल 2006 में उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था। अपने वनडे करियर के एक साल बाद ही उन्होंने 2007 के आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में भारत के खिलाफ 56* रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को वैश्विक मंच पर चौका दिया था। मुशाफिकुर ने इस प्रारूप में कई उपलब्धियां हासिल कीं और अपनी टीम का नेतृत्व भी किया।

उन्होंने अपने 274 मैचों के करियर में 9 शतक और 49 अर्धशतक के साथ 7795 वनडे रन बनाए। उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं और मुझे एहसास हुआ है कि यहीं मेरी नियति है। मैं अपने परिवार, दोस्तों और अपने प्रशंसकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके लिए मैंने पिछले 19 सालों से क्रिकेट खेला है।

भारत और न्यूजीलैंड मैच में बारिश हो गई तो कौन होगा विजेता? आईसीसी के नए रूल

दुबई (एजेसी)। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड में दुबई के मैदान पर 9 मार्च को निश्चित है। भारतीय टीम रफु स्ट्रेज को न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। लेकिन न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट में जिस तरह प्रदर्शन किया है उससे फाइनल और भी रोमांचक हो गया है। न्यूजीलैंड ने बीते दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन क्या हो अगर फाइनल का दिन बारिश की भेंट चढ़ जाए तो। अगर बारिश से मैच प्रभावित हुआ तो आईसीसी का नियम क्या होगा। आइए जानते हैं-

क्रिकेट मैच में बारिश का आना स्वभाविक है। लेकिन यह बड़े मुकाबले धो दे। ऐसा बहुत कम हुआ है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विशेष नियमों का ध्यान रखा है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी एक दिन

रिजर्व रखा है। यदि 9 मार्च की निर्धारित तिथि पर बारिश के कारण खेल बाधित होता है, तो मैच अगले दिन फिर से शुरू किया जाएगा।

वैसे भी अगर वेदर रिपोर्ट देखी जाए तो 9 मार्च को दुबई में हलके बादल छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 32 तो न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

क्रिकेट फेंस को याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का फाइनल मुकाबला दो बार बारिश के कारण प्रभावित रहा था। उक्त मुकाबला भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच खेला गया था। उस समय रिजर्व डे का इतना प्रचलन नहीं था लेकिन जब फाइनल में रिजर्व डे लेकर मैच करवाया गया तो उस दिन इंद्र देवता को



आईसीसी मना नहीं सकती। लगातार दूसरे दिन बारिश हुई जिससे फाइनल पुरा नहीं करवाया जा सका। पहले दिन श्रीलंका ने खेलते हुए 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 244 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम ने जब 2 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 14 रन बना लिए थे तो बारिश आ गई। क्योंकि 15 ओवर पूरे नहीं हो पाए थे इसलिए मैच का नतीजा नहीं निकला। दूसरे दिन दोबारा फाइनल मुकाबला करवाया गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 7 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया ने 84 ओवर में जब 1 विकेट खोकर 38 रन बना लिए थे तो फिर से बारिश आ गई। इसके बाद मैच शुरू नहीं हो पाया। आईसीसी ने इसके बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया। ऐसा आईसीसी के इतिहास में पहली बार हुआ था।



अग्निवीरमन कर पांचवां बैच कर आईएनएस चिल्का से पासिंग आउट परेड आइज

नई दिल्ली। अग्निवीरमन कर पांचवां बैच कर पासिंग आउट परेड (पीओपी) 7 मार्च 2025 के आईएनएस चिल्का में आयोजित होवी। पीओपी में लगभग 2972 गो अग्निवीरमन कर परसिखन कर सफल समापन होवी, जेकर में महिला अग्निवीर

भी सामिल हयें, जेमन आईएनएस चिल्का में कठोर परसिखन प्राप्त कइ रहयें। दक्षिणी नौसेना कमान कर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास काजंकरम में मुध गोतिया रहबयें आउर सूर्यास्त

कर बाद पीओपी कर निरीखन करबयें। ई महतपूर्ण अवसर में अग्निवीरमन कर गौरवान्वित परिवार भी उपस्थित रहबयें। इकर अलावा, उच्च उपलब्धि वाला दिग्गज आउर प्रतिष्ठित खेल हस्तमन भी मउजूद रहबयें, जो अग्निवीरमन के

उनकर उल्लेखनीय जात्रा से प्रेरन देंबयें। एफओवी-इन-सी,एसएनसी भी समापन समारोह में सामिल होंबयें। बिभिन्न परसिखुमन, डिजीजन के पुरस्कार/ट्रॉफी से सम्मानित करबयें। परसिखुमन कर 'द्विभासी पत्रिका' अंकुर' कर

विमोचन करबयें। पासिंग आउट परेड न खली 16 सप्ताह कर प्रारंभिक नौसेना परसिखन कर सफल समापन कर प्रतीक आहे, बलकि जुड़ ले तइयार, विश्वसनीय, एकजुट आउर भविस ले तइयार

भारतीय नौसेना में उनकर जात्रा कर भी प्रतीक आहे। भारतीय नौसेना कर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज आउर छेत्रीय दूरदरसन नेटवर्क में 7 मार्च 25 को 5.30 बजे से पासिंग आउट परेड कर सीधा परसारन करल जाई।

अनुसासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आउर टीम भावना के बढ़ावा देवेला खेलकूद : राज्यपाल

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी आउर अग्निमन सेवा कर बारसिक खेलकूद प्रतिजोगिता सुरू

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झारखंड गृह रक्षा वाहिनी आउर अग्निमन सेवा कर बारसिक खेलकूद प्रतिजोगिता-2025 कर उद्घाटन 6 मार्च के करलयें। ई अवसर में ऊ कहलयें कि खेलकूद हमिन कर जिनगी में अनुसासन, टीम भावना आउर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बढ़ावा देवेला। ई सासरीरक आउर मानसिक विकास ले बहुते जरूरी आहे। ऊ झारखंड गृह रक्षा वाहिनी आउर अग्निमन सेवा विभाग द्वारा आपन जवानमन कर स्वास्थ्य आउर मनोबल के बढ़ाएक ले ई किसिम कर कर आयोजन कर सराहना करलयें।

राज्यपाल गृह रक्षा वाहिनी आउर अग्निमन सेवा कर जवान द्वारा राज कर आंतरिक सुरक्षा आउर आपदा प्रबंधन में निभाल जायेक



वाला भूमिका कर सराहना करलयें। ऊ कहलयें कि हमिन कर अग्निमन कर्मी आपनी जान कर परवाह करल

विना आगलगी कर घटना के रोकेक में महतपूर्ण जोगदान देवयेंना। ऊ ई भी उल्लेख करलयें कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड अग्निमन विभाग के 150 करोड़ रुपया आवंटित करल जात हे, जेकर से ई विभाग कर

तकनीकी दृष्टता आउर प्रभावशीलता में वृद्धि होवी। राज्यपाल बिगत बहर राष्ट्रपति द्वारा 'वीरता पुरस्कार'

से सम्मानित अग्निमन कर्मी के बढ़ाई देलयें।

राज्यपाल कहलयें कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कर जवान राज कर बिभिन्न प्रतिष्ठान कर सुरक्षा, ट्रैफिक बेवस्था आउर चुनावी प्रक्रियायन में भी आपन महतपूर्ण भूमिका निभाते आवत हयें। ऊ ई भी कहलयें कि गृह रक्षकमन कर मानदेय में वृद्धि होवेक से उनकर पारिवारिक जिनगी आउर छुडवामन कर सिखा में सहायता मिलत हे। ऊ सुझाव देलयें कि गृह रक्षकमन के 'स्वास्थ्य बीमा' कर सुबिधा भी उपलब्ध कराल जाए।

राज्यपाल सउब प्रतिभागीमन के सुभकामना देते आसा वेक करलयें कि ई बारसिक खेलकूद प्रतिजोगिता जवान के आपन प्रतिभा देखायेक आउर एक-दूसर कर संगे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेक कर अवसर प्रदान करी। ऊ सउब कर उज्ज्वल भविस कर कामना करलयें।

समाज में महिला-पुरुस में समानता लानेक में सउबकर सहजोग जरूरी : डॉ ब्रजेश

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कर अवसर में प्रतिजोगिता कर आयोजन

रांची। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस में रांची विश्वविद्यालय अस्तरीय भासन, निबंध, स्लोगन, चित्रकला आउर नुक्कड़ नाटक कर आयोजन आरू कर आरंभट्ट सभागार में 6 मार्च, 2025 के करल गेलक। रांची विश्वविद्यालय कर कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा कर दिसा निरदेश में रांची विवि कर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आउर इंटरनल कमेटी (महिला कोषांग) कर संयुक्त तत्वावधान में ई भेलक। विश्वविद्यालय कर राष्ट्रीय सेवा योजना कर काजंकरम समन्वयक डॉ. ब्रजेश कुमार इकर अध्यक्षता करलयें। आपन अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. ब्रजेश कुमार कहलयें कि महिलामन हमिन कर समाज कर रीढ़ हयें।



उनकर अधिकार आउर ससक्तिकरण ले हमिन के एकजुट होए के काम करेक होवी। महिला- पुरुस समाज में दिसयें, इकर ले सउब कर सहजोग आवसक आहे। बिभिन्न प्रतिजोगिता में आरू कर 32 विश्वविद्यालय विभाग आउर महाबिद्यालय कर लगभग 495

एनएसएस कर स्वयंसेवक सामिल रहयें। प्रतिजोगिता कर आयोजन आरंभट्ट सभागार, विश्वविद्यालय जंतुविज्ञान विभाग आउर भूगर्भ शास्त्र विभाग में करल गेलक। काजंकरम बिहाने 10:30 बजे से सुरू करल गेलक। ई लगभग सांझ कर 6 बजे तक चललक। सउब प्रतिजोगिता

में सफल प्रतिभागीमन के 8 मार्च कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कर मुध समारोह में सम्मानित करल जाई। काजंकरम कर सफल संचालन दिवाकर, अतुल, नैना आउर निशिता करलयें। काजंकरम के सफल बनायेक में एनएसएस कर टीम लीडर्स अंकित, रौनक, अंश,

आकाश, विश्वजीत, रिकेश, प्रणव, आदर्श, आकांक्षा, जया, सुमन, दीक्षा आदि कर उल्लेखनीय जोगदान रहे। निर्वायक मंडल में सामिल सदस्य : भासन प्रतिजोगिता : डॉ सुनीता कुमारी गुप्ता, डॉ किरण कुमारी, डॉ चंचल लकड़ा, डॉ आनंद कुमार भगत, निबंध प्रतिजोगिता : डॉ भारती

द्विवेदी, डॉ शशांक शेखर सिन्हा, संदीप कुमार, स्लोगन प्रतिजोगिता : डॉ निक्कू कुमारी, डॉ पूनम कुल्लू, चित्रकला प्रतिजोगिता : डॉ लाडली रानी, डॉ रूपा वर्मा, डॉ सुनील कुमार झा, नुक्कड़ नाटक : डॉ हैप्पी भाटिया, डॉ जय नारायण महतो, डॉ प्रदीप कुमार सिंह।

गोस्सनर सिने फेस्ट 4.0 कर समापन : झारखंड कर सिनेमा के मिललक नवा उड़ान



बिभिन्न श्रेणी कर फिलिम के मिललक पुरस्कार

छेत्रीय भासा में फिलिम बेसी बनेक चाही

रांची। गोस्सनर कॉलेज में चलेक वाला तीन दिनक गोस्सनर सिने फेस्ट 4.0 कर समापन 6 मार्च के होए गेलक। समापन कर मुध गोतिया पूर्व सिखा मंत्री बंधु तिकी कहलयें कि झारखंड में छेत्रीय भासा संबंधित फिलिम बेसी से

बेसी बनेक चाही, ताकि हियां कर अदमीमन हियां कर संस्कृति के जाइन सकयें। ऊ कहलयें कि हियां कलाकारमन के एक उचित मंच नई मिले पारेला, जेकर चलते ऊमन आपन कला कर परदरसन नई करे पारयेंना।

सिने फेस्ट कर सुरुआत बायोटेक विभाग कर छात्रा साक्षी बागे नृत्य से करलयें। इकर बाद झारखंड कर प्रसिद्ध गायिका मोनिका मुंडू

छेत्रीय भासा में गीत प्रस्तुत कइर के दरसकमन के लोभालयें। सिने फेस्ट 4.0 कर तीनों दिन कतई फिलिम आउर म्यूजिक बिडियो कर स्क्रीनिंग होलक, जेकर में हिंदी, उड़िया, नागपुरी, संथाली आउर तमिल भासा कर फिलिम सामिल रहे। सिने फेस्ट में बिभिन्न श्रेणी



बिभिन्न श्रेणी कर फिलिम के मिललक पुरस्कार

सोर्ट फिलिम : पहिल : चरिकांधा (उड़िया भासा), दूसर : अनदेखा डॉक्यूमेंट्री : पहिल : मलार, दूसर : फॉर्म सोली टू ग्लोरी म्यूजिक बिडियो नागपुरी : पहिल : ऐ हवा, दूसर : मोर सुंदर छोटा नागपुर म्यूजिक बिडियो हिंदी : पहिल : आया न वो मेरा साजन, दूसर : पतंग बिज्ञापन : पहिल : बुलेट, दूसर : कांफ़ी कर्मशियल ट्राइबल फिलिम : पहिल : एपिल तारस (संथाली भासा), दूसर : अबिरकु एन आंद्रे (तमिल भासा)

बलकि गोटा झारखंड कर फिलिम प्रेमीमन ले एगो सानदार मंच प्रदान करल गेलक। हियां बिभिन्न भासा आउर बिधा कर फिलिम, म्यूजिक बिडियो आउर डॉक्यूमेंट्री कर स्क्रीनिंग होलक।



कर फिलिम के परदरसित करल गेलक। इकर में शॉर्ट फिलिम, म्यूजिक बिडियो, डॉक्यूमेंट्री, ट्राइबल फिलिम आउर बिज्ञापन सामिल रहे। काजंकरम में एमसीवीपी विभाग कर समन्वयक प्रो. आशा रानी करकेटा, विभागाध्यक्ष प्रो. गोल्डन बिलुंग, प्रो. संतोष कुमार, प्रो. अनुज कुमार, शहबाज,

देव संगे सउब विभाग कर सम्मानित सिखक आउर सिखिकामन संगे बिद्यार्थी मौजूद रहयें। मंच संचालन लिजा, रोहित आउर श्रद्धांजलि करलयें। प्रतिभागीमन आउर दरसकमन ई आयोजन के एगो याइदगार अनुभव बतालयें। अगला बहर फिर से ई किसिम कर आयोजन कर उम्मीद जतालयें। दरसकमन कहलयें कि सिने फेस्ट में ना खली कॉलेज कर छात्र,